



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 1992 (पौष 14, 1913)  
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 1992 (PAUSA 14, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

### भाग I—खण्ड 4

#### [PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 1992

तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)

रक्षा वैमानिक गुणता आश्वासन सेवा

सं० 1671, दिनांक 13-11-91 —रक्षा मंत्रालय, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु), नई दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय (ए० ए०) तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु), रक्षा मंत्रालय, त्रिचनापली के श्री वी० एन० शंकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II दिनांक 31-10-91 (पूर्वाह्न) से उसी स्थापना में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-1 हुए। वे दो वर्ष की अवधि तक परखाधीन रहेंगे।

सं० 1672, दिनांक 11-12-91—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

2. तं० वि० तथा उ० नि० में स्थायी रूप से उपनियुक्त एयर कोमोडोर अनुप एस सेठी (5479) सभारिकी

उसी स्थापना में 27-7-91 (पूर्वाह्न) से एयर वाइस मार्शल (स्थायी कार्यकारी अवस रैंक) में होंगे।

प्याम मुन्दर  
हेड अधिकारी

सं० 1673, दिनांक 29-11-91 —निदेशक, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु), रक्षा मंत्रालय, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड में निम्नलिखित स्थानापन्न पदोन्नतियां करतें हैं :—

क्र० सं०	नाम व पद	कार्यालय	से
1.	श्री के०बी० वैकटकुण्डर्या फोरमैन	दुकडी वायु शस्त्र निरीक्षण स्कन्ध, (पूर्वाह्न) इटारसी	22-7-91
2.	श्री एस०एम०एस० गौर मुख्य आरेखक	दुकडी वायु शस्त्र निरीक्षण स्कन्ध, (पूर्वा०) इटारसी	13-11-91

2. वे अपनी अपनी पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परम्पराधीन रहेंगे।

बी० पी० अग्रवाल  
सहायक निदेशक (प्रशासन)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 1674, दिनांक 17-11-91 —राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्तियां करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

रक्षा धातुकर्मिय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के वैज्ञानिक (ई) (तदर्थ) डा० रंगनाथन सुदरेसन को 25-3-1991 (पूर्वाह्न) में उसी प्रयोगशाला में अस्थायी वैज्ञानिक (ई) के रूप में।

सं० 1675, दिनांक 2-12-91 —राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्ति करते हैं :—

गुणता आशवासन महानिदेशालय, नई दिल्ली के डा० आर० के० सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 को 03-9-91 (पूर्वाह्न) से रक्षा सामग्री एवं भण्डार अनुसंधान तथा विकास स्थापना, जी टी रोड, कानपुर में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दो वर्ष के लिए वैज्ञानिक "डी" के रूप में।

सं० 1676, दिनांक 23-9-91—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

श्री एस डी थम्मन, को 09-08-1991 (पूर्वाह्न) से 3000-4500 रु० के वेतनमान में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय में स्थानांतरण के आधार पर अस्थायी वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में।

नरसिंह दास, सहायक निदेशक (कार्मिक)

सेना मुख्यालय

(जी० एस० शाखा)

सं० 1677, दिनांक 26-11-91—राजपत्रित अधिसूचना सं० ए/23456/डी०जी०एन/ए/मु०प्र०अ०/ए-7—दिनांक 14-06-91, में निम्नलिखित संशोधन, जो कि श्री ओ० पी० गुप्ता, वरिष्ठ एकाउन्ट्स अधिकारी (ग्रुप ए) की प्रतिनियुक्ति की नियुक्ति से संबंधित है, किया जाता है :—

के लिए सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर के पद पर 6 मास के लिए 31-5-91 से नियुक्त।

पढा जाए सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर के पद पर तीन वर्ष के लिए 31-5-91 से या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो नियुक्त।

गुणवत्ता आशवासन महानिदेशालय

सं० 1678, दिनांक 8-11-91—निम्नलिखित सहायक (ग्रुप 'बी'—अराजपत्रित) 11 अक्टूबर, 91 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थाना-पत्र सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाते हैं :—

1. श्री रामेश्वर ब्याल शर्मा
2. श्रीमती मन्दिरा भट्टाचारजी

उपरोक्त पदोन्नति विशुद्ध रूप से अनन्तित है और इस पदोन्नति के आधार पर व्यक्ति को वरिष्ठता या अगली पदोन्नति के लिए कोई दावा नहीं बनता।

पुर्नवास महानिदेशालय

सं० 1679, दिनांक 15-11-91—श्री केहर सिंह, सिविलियन स्टाफ अधिकारी को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 के नियम 10(2) के अधीन 02-07-91 से 31-12-91 अवधि के लिए या नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने में से जो भी पहले हो उस समय तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सलेक्शन ग्रेड अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं न्यायालयों में लंबित पड़े अन्य संबंधित मामलों पर अन्तित निर्णय के अन्वयधीन होगी।

सेना शाखा

रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

सं० 1680, दिनांक 2-12-91—श्री एम० एम० लाल, स्थायी सहायक को स्थानापन्न ए०सी०एस०ओ० के रूप में स्थानीय आधार पर दिनांक 01-08-91 से 09-10-91 तक, श्री एस० पी० एस० यादव, ए०सी०एस०ओ० जो 01-08-91 (पूर्वाह्न) से सेवा निवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर महानिदेशालय

सं० 1681, दिनांक 2-12-91—श्री बालक राम, स्थायी सहायक ए०सी०एस०ओ० के रूप में स्थानीय आधार पर दिनांक 1-7-91 से 9-10-91 तक, श्री बलदेव राम, ए०सी० एस० ओ० जो 30-6-91 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए ह, के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।

एस० लोगानाथन

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं० 1682, दिनांक 25-11-1991—सक्षम प्राध-कारी ने अधोलिखित सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (प्रोबेशनर) को उसके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थाई सहायक

सिविलियन स्टाफ अधिकारी (ग्रुप "बी" राजपत्रित) के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है:—

क्र० सं०	नाम	कार्यालय	स्थायी नियुक्ति की तारीख	सेवारत स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों में उनका स्थान
1	2	3	4	5
1.	कृ० डी० प्रियदर्शनी	आर० ए० डी०/ए० टी० डी० पी०	18-06-91	श्री राजेश सक्सेना से नीचे

पी० अनन्ताकृष्णन  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

(थल सेना मुख्यालय)

(ए० जी० शाखा)

सं० 1683, दिनांक 1-11-1991—सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के नियमावली, 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे लिखी गई तारीख से 15-10-91 तक या नियमित पदधारियों के मिलने में से जो भी पहले हो, उस समय तक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद पर नियुक्ति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया है:—

सर्वश्री

एच० के दास	16-4-91
श्रीमती टी० चन्द्राबानू	16-4-91
कुमांगी रुबी अधिकारी	16-4-91
रवी दत्त	16-4-91
जय प्रकाश त्रिवेदी	16-4-91
ब्रह्म प्रकाश धनिया	16-4-91
के० एल० बोहरा	15-4-91
श्रीमती मंजू शीगन	16-4-91
श्रीमती जयश्री गलगोटिया	16-4-91
जय सिंह राठी	16-4-91
रामफल खोबा	16-4-91
राम कुमार चौहान	16-4-91
प्रताप सिंह जाटव	16-4-91

लाल चन्द	16-4-91
राम स्वरूप	16-4-91
जी० बी० पन्त	16-4-91
पी० पी० वत्स	16-4-91
टी० एन० मोहनन नायर	16-4-91
शुद्धा चन्द	16-4-91
किसन राम	16-4-91
फूल सिंह	16-4-91
ज्ञान चन्द	16-4-91
राम सिंह	16-4-91
दारा चन्द	16-4-91
राम मूर्ती शर्मा	18-4-91
के० एन० सुबुधी	16-4-91
गनपत सिंह	16-4-91

2. ये नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई अवधि के लिये हैं, जिन्हें प्रशासनिक कारणों से या नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

सं० 1684, दिनांक 31-10-1991—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के डी अरुण स्वरूप सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी को श्री के० एल० अलोरिया, सिविलियन स्टाफ अधिकारी जो कि परिणत अवकाश पर हैं के स्थान पर स्थानीय आधार पर दिनांक 13-2-91 से 12-8-91 और 14-8-91 से 24-9-91 तक स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया है।

सेना शाखा

(क्यू एम० जी शाखा)

सं० 1685, दिनांक 12-11-1991—श्री आ० डी० आर० शर्मा की सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति दिनांक 1-12-81 से 13-10-81 पूर्व दिनांकित कर दी गई है।

एस० लोगनाथन

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्र०)

सं० 1686, दिनांक 9-12-91 —राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3/विशेष/70 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 25 अगस्त 89 से अल्प सेवा कमीशन

छोड़ने पर पदोन्नति के लिए दिनांक 20 अप्रैल 85 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए दिनांक 25 अगस्त 84 से वरिष्ठता के साथ सैक्रेटरी लेफ्टिनेंट के रैंक में दिनांक 25 अगस्त 89 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन विद्ये जाएगा उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी। उनकी वरिष्ठता के अनुसार उनकी दिनांक 25 अगस्त 89 से लेफ्टिनेंट के रैंक में दिनांक 20 अप्रैल 87 से वरिष्ठता सहित पदोन्नति की जाती है :—

अजय शरद डभोलकर (एस० एस०-31787 अब आई० सी०-45362 एन) इन्फेन्ट्री।

सतीश चंद कटोछ (एस०एस०-31789 अब आई० सी०-45364 वार्ड) ए० सी०।

प्रवेश पूरी (एस० एस०-31791 अब आई० सी०-45365 एफ) ए० सी०।

सन्वीप सिंह (एस० एस०-31792 अब आई० सी०-45366 के) ई० एम० ई०।

हल्कीत सिंह (एस०एस०-31793 अब आई० सी०-45367 एम) इन्फेन्ट्री।

इलवीस डी० मान्टी (एस० एस०-31794 अब आई० सी०-45368 पी) इन्फेन्ट्री।

भासकर देव बरमन (एस० एस०-31795 अब आई० सी०-45369 एक्स) ए० एस० सी०।

गुरकिरपाल सिंह भमक (एस० एस०-31797 अब आई० सी०-45370 एम) ए० एस० सी०।

धनजय पाल सिंह बाबुलाल (एस० एस०-31799 अब आई० सी०-45371 पी) इन्फेन्ट्री।

पदम कुमार यादव (एस० एस०-31800 अब आई० सी०-45372 एक्स) ए० सी०।

द्विरेन्द्र मोहन शर्मा (एस० एस०-31801 अब आई० सी०-45373 ए) आर्टी०।

नरेन्द्र कुमार खजूरिया (एस० एस०-31802 अब आई० सी०-45374 एच) ए० एस० सी०।

मुकेश कुमार वाइद (एस० एस०-31804 अब आई० सी०-45376 एन०) ए० सी०।

अमीत सिंह (एस० एस०-31805 अब आई० सी०-45377 डब्ल्यू) ए० सी०।

अरविन्द कुमार शुक्ला (एस० एस०-31806 अब आई० सी०-45378 वार्ड) आर्टी०।

राजीव पूंज (एस० एस०-31807 अब आई० सी०-45379 एफ) इन्फेन्ट्री।

नरिन्दर कुमार (एस० एस०-31812 अब आई० सी०-45380 डब्ल्यू) आर्टी०।

अनूप सिंह नेगी (एस० एस०-31815 अब आई० सी०-45383 के) ई० एम० ई०।

सुखविन्दर पाल सिंह चीमा (एस० एस०-31816 अब आई० सी०-45384 एम) इन्फेन्ट्री।

जगजीत सिंह (एस० एस०-31820 अब आई० सी०-45386 एक्स) ई० एम० ई०।

रमीन्दर पाल सिंह (एस० एस०-31823 अब आई० सी०-45387 ए) आर्टी०।

गुरकिरत सिंह (एस० एस०-31828 अब आई० सी०-45389 एल) ई० एम० ई०।

करियपा एम सी० (एस० एस०-31829 अब आई० सी०-45390 ए) ए० एस० सी०।

नीरज शर्मा (एस० एस०-31830 अब आई० सी०-45391 एच) इन्फेन्ट्री।

अनिल कुमार बगणी (एस० एस०-31831 अब आई० सी०-45392 एल) ए० सी०।

वेवशीष खान (एस० एस०-31832 अब आई० सी०-45393 एन) आर्टी०।

पी० बी० बी० विद्यासागर (एस० एस०-31834 अब आई० सी०-45395 वार्ड) ई० एम० ई०।

राजेश कुमार शर्मा (एस० एस०-31836 अब आई० सी०-45396 एफ) ए० एस० सी०।

रमेश सम्मथ (एस० एस०-31841 अब आई० सी०-45398 एम) ए० सी०।

राजेन्द्र सिंह (एस० एस०-31844 अब आई० सी०-45399 पी) ए० एस० सी०।

वलविधर सिंह (एस० एस०-31848 अब आई० सी०-45401 एफ) आर्टी०।

सुधीर मोहन (एस० एस०-31849 अब आई० सी०-45402 के) इन्फेन्ट्री।

विमल मल्लिक (एस० एस०-31851 अब आई० सी०-45405 एक्स) आर्टी०।

प्रवीण मनडोटरा (एस० एस०-31852 अब आई० सी०-45406 ए) ए० सी०।

सनजय बाजपाइ (एस० एस०-31853 अब आई० सी०-45407 एच) आर्टी०।

राजिन्दर सिंह (एस० एस०-31855 अब आई० सी०-45408 एल) ए० सी०।

एम० हरिप्रसाद द्वेधडे (एस० एस०-31858 अब आई० सी०-45409 एल) ई० एम० ई० ।

योगिनंदर सिंह चौहान (एस० एस०-31860 अब आई० सी०-45410 एच) ई० एम० ई० ।

प्रभोध नैमल (एस० एस०-31867 अब आई० सी०-45413 डब्ल्यू) आर्टी० ।

दिनेशा अलाग (एस० एस०-31870 अब आई० सी०-45416 के) ए० एस० सी० ।

मत्स्येन्द्र पण्डित (एस० एस०-31872 अब आई० सी०-45417 एम) ए० सी० ।

विपिन कुमार भटनागर (एस० एस०-31873 अब आई० सी०-45418 पी) आर्टी० ।

विकास चन्द्रा चित्तवंशी (एस० एस०-31875 अब आई० सी०-45419 एक्स) जे० ।

अजय कुमार खजूरिया (एस० एस०-31876 अब आई० सी०-45420 एम) ई० एम० ई० ।

विवेक माधव निकते (एस० एस०-31879 अब आई० सी०-45421 पी) ए० एस० सी० ।

प्रवेश कुमार भाटिया (एस० एस०-31880 अब आई० सी०-45422 एक्स) ए० सी० ।

मनोज कुमार बिज (एस० एस०-31889 अब आई० सी०-45424 एच) ई० एम० ई० ।

राजवीर सिंह (एस० एस०-31890 अब आई० सी०-45425 एल) आर्टी० ।

सोहन सिंह (एस० एस०-31892 अब आई० सी०-45426 एन) ए० सी० ।

बंकेतेश्वर राव सीतमराजू (एस० एस०-31902 अब आई० सी०-45427 डब्ल्यू) जे० ।

दरिप खान (एस० एस०-31803 अब आई० सी०-45375 एल) ए० सी० ।

सुरिन्दरपाल सिंह (एस० एस०-31813 अब आई० सी०-45381 वाई) ए० सी० ।

युद्धवीर सिंह (एस० एस०-31814 अब आई० सी०-45382 एफ) ई० एम० ई० ।

सरबिन्दर सिंह सन्दु (एस० एस०-31847 अब आई० सी०-45400 वाई) ए० सी० ।

अशोक कुमार बालकृष्णन (एस० एस०-31826 अब आई० सी०-45388 एच) ए० एम० सी० ।

संजय गुप्ता (एस० एस०-31840 अब आई० सी०-45397 के०) ए० सी० ।

सूर्य प्रकाश भट (एस० एस०-31884 अब आई० सी०-45423 ए) ई० एम० ई० ।

जसबिन्दर सिंह (एस० एस०-31878 अब आई० सी०-45428 वाई) ए० एस० सी० ।

एम० नटराजन (एस० एस०-31786 अब आई० सी०-45361 एम) ई० एम० ई० ।

भगत सिंह (एस० एस०-31869 अब आई० सी०-45415 एफ) ई० एम० ई० ।

(पी० के० रामपाल)

कर्मल

कर्मल एम० एस० ग्रा० एण्ड ग्रा०

सं० 1687, दिनांक 12-12-1991—राष्ट्रपति थल सेना अनुबंध 7/विशेष/86 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 18 मार्च 83 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर पदोन्नति और वेतन बढ़ि के लिये दिनांक 16 मई 76 से बरिष्ठता के साथ सैकिड लैफ्टीनेंट के रैंक में दिनांक 18 मार्च 83 से स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन दिया जायेगा उनकी परस्पर बरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी। उनकी बरिष्ठता के अनुसार उनकी दिनांक 18 मार्च 83 से लैफ्टीनेंट के पद में दिनांक 16 मई 78 से बरिष्ठता सहित पदोन्नति की जाती है।

थोमस भोसफ (एस० एस०-29084 अब आई० सी०-37160-एक्स) इंजीनियरस

पीताम्बर रामपाल, कर्मल

सेना मुख्यालय

(जी० एस० शारदा)

सं० 1688, दिनांक 4-12-1991—सक्षम अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र सहायक को स्थानीय आधार पर स्थानापन्न (ग्रुप बी-राजपति) ए० सी० एस० श्री० के पद पर 47 दिन के लिए 17-6-91 से 2-8-91 तक, श्री पी० सी० शर्मा, ए० सी० एस० श्री० के स्थान पर, जो कि अवकाश पर थे, नियुक्त करते हैं।

एस० लोचानाथन

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 1689, दिनांक 12-12-1991—राष्ट्रपति सहर्ष ब्रिग० पी० के० पुरी (आई० सी०-13650) को 3 दिसम्बर 91 (पूर्वाह्न) से आसाम रेजीमेंट के कर्मल के पद में नियुक्त करते हैं।

सं० 1690, दिनांक 12-12-1991—राष्ट्रपति सहृषं ले० जन० एस० के० पिल्लई (आई० सी०-7325) प० वि० से० में० सेवा निवृत्त को 30 नव० 91 (अपराह्न) से आसाम रेजीमेंट के कर्नल के पद से मुका होने की अनुमति देते ह ।

प्र० जी० सक्सेना  
ए० एम० एस० (एक्स)

थल सेना मुख्यालय  
ई०-इन-सी० शाखा

सं० 1691, दिनांक 11-12-1991—सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सहायकों को उनके समक्ष बर्शायी गयी तिथियों से सशस्त्र सेना मुख्यालय को सिविल सेना में सहायक असैनिक स्टाफ अधिकारी के पद पर अगले आदेश तक नियुक्ति की जाती है :-

(क) श्री जे० एल० गिरधर	11-10-91
(ख) श्री एन० के० अंसल	11-10-91
(ग) श्री के० के० मक्सेना	11-10-91

उपरोक्त पदोन्नतियां पूर्णतः अस्थाई आधार पर है और वे इस पदोन्नति के आधार पर अगली पदोन्नति तथा वरिष्ठता का कोई दावा नहीं कर सकते।

एस० लोगानाथन  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

नौसेना मुख्यालय  
(नेवी ब्राँच)

सं० 1692, दिनांक 12-11-1991—श्री राजेन्द्र पाल सिंह, वैयक्तिक सहायक दिनांक 7-10-91 (पूर्वाह्न) से 31-12-91 तक अथवा चयनसूची से उम्मीदवारों की उपलब्धता तिथि तक जो भी पहल हो के लिये सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपिक सेवा में अस्थाई आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया जाता है।

श्री राजेन्द्र पाल सिंह की निजी सचिव की नियुक्ति निम्न शर्तों के अनुसार होगी :-

- (क) नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई आधार पर है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना किसी सूचना के उन्हें प्रयार्वातित किया जा सकता है।
- (ख) उपर्युक्त पद के लिये नियमित आधार पर नियुक्ति के लिये वे न तो कोई दावा करेंगे और न ही अस्थाई आधार पर की गई सेवा को वरिष्ठता के लिये गिना जायेगा।

सं० 1693, दिनांक 16-11-1991—श्री आर० एस० मन्नेश्वरी, सहायक, दिनांक 7-10-91 से 22-11-91

तक श्री आर० एस० वर्मा, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के स्थान पर (छुट्टी जाने पर) स्थानीय आधार पर कार्यकारी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं।

सं० 1694, दिनांक 28-11-1991—निम्नलिखित सहायक, उनके नाम के सामने दिखायी गई तिथि से आगामी आदेशों तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :-

(1) श्री वेद कुमार	11-10-91
(2) श्री भुवनेश चन्द्रा	14-10-91
(3) श्री पी० ए० पट्टाएट	11-10-91
(4) श्री जे० के० भटनागर	14-10-91
(5) श्री डॉ० पी० अग्रवाल	11-10-91
(6) श्री धर्म चन्द	15-10-91
(7) के० एल० नरुला	11-10-91
(8) श्री आर० सी० डोगरा	11-10-91
(9) श्री एम० एस० शर्मा	11-10-91

2. उक्त पदोन्नतियां पूर्णतया अस्थाई आधार हैं एवं कर्मचारी वरियता हेतु अथवा इस पदोन्नति के आधार पर आगे पदोन्नति के लिये दावा नहीं कर सकते।

एस० लोगानाथन  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा०)

वायुसेना मुख्यालय

सं० 1695, दिनांक 5-12-1991—श्री रेवती प्रसाद, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 की धारा 10(2) के अधीन सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद पर 11 नवम्बर 1991 (पूर्वाह्न) से 20 अप्रैल 1992 (अपराह्न) तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति बिल्कुल काम चलाऊ व्यवस्था के लिए की गई है और प्रशासनिक कारणों से बिना नोटिस दिए अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर, इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

एस० लोगानाथन  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 1696, दिनांक 2-12-91—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना, पुणे के निम्नलिखित "बी" वैज्ञानिकों को 01 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) से इसी संस्थान में स्थानापन्न वैज्ञानिक "सी" के रूप में :—

श्री एम ए कुमार  
श्री एस के रस्तोगी  
श्री आर ए पासे  
श्री एम एल बनर्जी  
श्री एस एन हुड्डा  
श्री एम जी सावंत  
श्री बी एस विरमानी  
श्री एस सुब्रामण्यम्  
श्री एच जी श्रीवास्तव  
श्री एम पी भवष्यासन  
श्री बी बी नदगौडा  
श्री के बी गोडे  
श्री बी एन वास  
श्री एन पार्थसारथी  
श्री बी एम बाम  
श्री पी बी भटे  
श्री आर आर गोसावी  
श्री एस एस बालाकृष्णन  
श्री पी के रत्नाकरन  
श्री पी रामचन्द्रन  
श्री एस ए खान  
श्री एन पी बरहटे  
श्री के पी तोफैकर  
श्री डी टी होले  
श्री एस एन कस्तारे  
श्री एम पी एस नम्बूदिरि  
श्री सी आर मणि  
श्री डी के वत्ता गुप्ता  
श्री सी एम रामकृष्णन  
श्री यू बालन  
श्री आई थामस  
श्री के एम राजन  
श्री बी एस गुगले  
श्री जी जी वत्ता

श्री एस वी गड़े  
श्री एस एस गोरे  
श्री ए एस सलूखे  
श्री वाई पी एस राघव  
श्री आर टी उपासनी  
श्री पी के एस नैयर  
श्री एच ई सेवेल  
श्री एम जी राजाध्यक्ष  
श्री एस एम काले

आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना, पुणे के निम्नलिखित 'बी' वैज्ञानिकों को उनके नामों के सामने दी गई तारीख इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक "सी" के रूप में :—

1. श्री महेंद्र सा 23-7-1990 (पूर्वाह्न)
2. श्री डी० जी० जोशी 5-7-1990 (पूर्वाह्न)

अनुसंधान केन्द्र इमारत, हैदराबाद के निम्नलिखित "बी" वैज्ञानिकों को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी केन्द्र में स्थानापन्न वैज्ञानिक "सी" के रूप में :—

1. श्री पी० वेंकटरमण
2. श्री काचे श्रीनिवास
3. श्री एम० एस० श्री रामू
4. श्री जी० सतीश रेड्डी
5. श्री एम० वी० वाई० एस० रवि कुमार
6. श्री जी० गौरी शंकर
7. श्री एम० प्रभाकर
8. श्री जे० वी० प्रसाद
9. श्री आर० अनिल कुमार
10. श्री डी० वी० सुब्बा राव
11. श्री ए० लिंग मूर्ति
12. श्री एम० उगेन्द्र रेड्डी
13. श्री एल० शोभन कुमार
14. श्री एस० गोपीनाथ
15. श्री ए० के० चट्टोपाध्याय
16. श्री एम० सुरेश
17. श्री एन० मणिक्कम
18. श्री एन० शिवनारायण
19. श्री जे० चट्टोपाध्याय
20. श्री एम० शंकर किशोर
21. श्री जाहिद हुसैन
22. डा० जकबान अहमद
23. श्रीमती पी० राधा रानी
24. श्री एन० विवेकानन्द

चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चम्पलीगढ़ के निम्नलिखित वैज्ञानिकों "सी" को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में ।

1. श्री मनोज काली 1-7-1990 (पूर्वाह्न)
2. श्री दर्शन सिंह 1-7-1990 (पूर्वाह्न)
3. डा० एल० के० चतुर्वेदी 16-7-1990 (पूर्वाह्न)

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संस्थान

चरम प्राक्षेपिकी अनुसंधान तथा विकास संस्थान (इंजीनियर्स) दिघी, पुणे के निम्नलिखित "सी" वैज्ञानिकों को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थापनापन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में :—

- श्री एस० एस० केलकर  
श्री पी० डी० बतने

इलेक्ट्रॉनिक्स विकास तथा अनुसंधान स्थापना, बंगलौर के निम्नलिखित "सी" वैज्ञानिकों को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में वैज्ञानिक "डी" के रूप में :—

- श्री वी० एन० दसाडे  
श्री जी० बूलचन्द  
श्री हमीनुअल जयकुमार  
श्री के० एस० मुरलीधर  
श्री टी० डी० विजयरावण  
श्री एन० रामनाथन  
श्री के० वी० प्रह्लाद राव  
श्री के० पी० अच्युत कुमार  
डा० राजू वेंकटरायण  
डा० डी० सी० पाण्डे  
श्री एम० ए० सुन्दर सिंह

कम्प्यूट वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापना, मद्रास के निम्नलिखित (बी) वैज्ञानिकों को उनके नाम के आगे दी गई तारीखों से इसी स्थापना में स्थापनापन्न वैज्ञानिक (सी) के रूप में :—

- श्रीमती उषा रमरायणस्वामी 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्रीमती नवनीता राधाकृष्णन 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्रीमती जयश्री शिवकुमार 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्रीमती आर० शांति 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्रीमती आर० प्रभावती 21-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री जी० एस० एस० सुन्दरराज 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री बी० अदल ज्योति 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री के० रूप चन्द्र 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री सी० गोविन्दराजन 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री ए० कुमारस्वामी 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री एस० श्रीधर 1-7-1990 (पूर्वाह्न)

- श्री एस० नल्लेशिषम 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्रीमती जयश्री वर्धन 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री जी० के० कुमारवेल 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री एन० पोन्नूस्वामी 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री बेंजामिन साहानील 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री यू० सेलोमन 1-7-1990 (पूर्वाह्न)  
श्री केनेथः घुडस 1-7-1990 (पूर्वाह्न)

अनुसंधान तथा विज्ञान मुख्यालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित "बी" वैज्ञानिकों को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी मुख्यालय में स्थापनापन्न वैज्ञानिक "सी" के रूप में :—

- श्री एस० बी० गोयल  
श्री एच० डी० भट्ट

वैमानिकीय विकास स्थापना, बंगलौर के निम्नलिखित (बी) वैज्ञानिकों को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थापनापन्न वैज्ञानिक (सी) के रूप में :—

- श्री गोपीकांत शाह  
श्री एस० वेंकटेशन  
श्री बी० सी० एन० शेट्टी  
रिक्त  
श्री ए० पी० रघुकुमार  
श्री सी० एम० तारकन  
श्री एम० गुरुबासवराज  
श्री जी० एस० रवीन्द्र  
श्री वी० अशोक रंगन  
श्री जय नारायण  
श्री ए० वी० सबनीस  
श्री टी० मोहन रेड्डी  
एस० त्यागराजू

रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के निम्नलिखित "सी" वैज्ञानिकों को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी संस्थान में वैज्ञानिक "डी" के रूप में :—

1. श्री ए० के० आद्य
2. श्री कंवर सेन
3. श्री टी० के० एच० नायर

नौसेना भौतिकी तथा समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन के श्री एम० जी० जोसेफ, वैज्ञानिक "सी" को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थापनापन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में ।

रक्षा विज्ञान केन्द्र, दिल्ली के निम्नलिखित (डी) वैज्ञानिकों को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी केन्द्र में वैज्ञानिक (ई) के रूप में :—

- डा० सी० डी० पांडे  
डा० अशोक कुमार



अन्तरिम टेस्ट रेंज, चांदीपुर के श्री एस० आर० बेरा, वैज्ञानिक सी को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) में इसी कार्यालय में स्थानापन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में ।

नौसेना भौतिकी तथा समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन के वैज्ञानिक श्री के० विजय कुमार वैज्ञानिक "सी" को दिनांक 1-7-1990 (पूर्वाह्न) में इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में ।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद के श्री एन० मोहन, वैज्ञानिक "सी" को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में ।

आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना, पुणे, के वैज्ञानिक "डी" श्री एस० एम० डांगे 31-8-1991 (अपराह्न) से सेवा से स्वीच्छक रूप से सेवा निवृत्त हुए और 1-9-1991 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थाव्रान्तरित किए गए ।

रक्षा शरीर क्रिया तथा सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली केन्द्र के वैज्ञानिक "सी" डा० जी० पी० डिमरी को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी संस्थान में स्थानापन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में ।

नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम के निम्नलिखित "बी" वैज्ञानिकों को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) में इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक "सी" के रूप में :—

- श्री एस० सुरेन्द्रन
- श्री पी० त्रिमूर्तुषु
- श्री एस० नाग मत्तेश्वर राव
- श्री के० राम ज्योति विंगम
- श्री एस० राजा
- श्री के० वी० एस० के० अप्पाराव
- कु० एम० संध्या
- श्री आर० राजेन्द्रन
- श्री पी० वी० एस० गणेश कुमार
- श्री ए० वी० जयकुमार
- श्री ए० के० बालासुब्रामण्यन

रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के निम्नलिखित (डी) वैज्ञानिकों को उनके नाम के सामने लिखी तारीखों में इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक (ई) के रूप में :—

- श्री ई० पी० शास्त्री 1-7-1990 (पूर्वाह्न)
- श्री आर० शंकरनारायणन ,,
- श्री सी० के० मुकुमारन ,,
- श्री कमल कांत ,,

- डा० के० वी० श्रीनिवास चौरी 9-7-1990 (पूर्वाह्न)
- श्री वी० भास्कर राव 1-7-1990 (पूर्वाह्न)
- श्री सी० आर० वेंकटरमणन ,,
- श्री जी० पी० शेणभाई ,,
- श्री एस० बालाकृष्णन ,,
- श्री रजतपाल ,,

आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना, पुणे के निम्नलिखित (डी) वैज्ञानिकों को दिनांक 1-7-1990 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक (ई) के रूप में :—

- श्री एस० एम० सोबती
- श्री के० जॉन
- श्री एम० आर० भागिया

नाभिकीय औषध तथा सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली के डा० एच० एस० यादव, वैज्ञानिक (डी) को 1-7-1990 (पूर्वाह्न) में इसी संस्थान में स्थानापन्न वैज्ञानिक (ई) के रूप में ।

पद्धति अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, दिल्ली के श्री एस० एन० मेहरोत्रा, वैज्ञानिक "डी" के सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-4-1991 (अपराह्न) को सेवा-निवृत्त हुए तथा दिनांक 1-5-1991 (पूर्वाह्न) को पेंशन स्थापना में स्थाव्रान्तरित हुए ।

नरसिंह दास,  
सहा० निदेशक (कार्मिक)

सं० 1697, दिनांक 25 सितम्बर, 1991—निम्नलिखित पदोन्नति की जाती है :—

कम्प्यूटर केन्द्र, दिल्ली के श्री आर० के० गुप्ता लेखाकार को 31-5-1990 (पूर्वाह्न) से नोशनल आधार पर तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय, नई दिल्ली में अस्थायी लेखा अधिकारी के रूप में ।

नाभिकीय औषध तथा सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली के श्री रघुवीर सिंह घबाना, लेखाकार को 10-10-1991 (पूर्वाह्न) से प्रबन्ध सेवा निदेशालय, अनुसंधान तथा विकास मुख्यालय, नई दिल्ली में लेखा अधिकारी के रूप में ।

यंत्र अनुसंधान तथा विकास स्थापना, देहरादून के श्री हरी राम आणुनिपिक ग्रेड-1 को 20-2-1991 (पूर्वाह्न) से उसी स्थापना में प्रशासन अधिकारी के रूप में ।

एम० एल० अरोड़ा,  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

(सेना विभाग)	त्रिपत सिंह (आई० सी०-19411 एन), इन्फैन्ट्री—
सं० 1698, दिनांक 29 नवम्बर, 1991— राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—	1 अगस्त, 1988 ।
नियमित सेना	एन० एन० डिल्लन (आई० सी०-19413 वार्ड), इन्फैन्ट्री, 1 अगस्त, 1988 ।
स्थायी कमीशन	वी० बी० सिंह (आई० सी०-19414 एफ), इंजीनियर— 1 अगस्त, 1988 ।
मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल के मूल रैंक में (खयन द्वारा):—	मैथ्यु जेकब (आई० सी०-19415 के), इन्फैन्ट्री— 1 अगस्त, 1988 ।
के० महादेवन (आई० सी०-28080 वार्ड), आर्टिलरी— 1 अगस्त, 1988 ।	के० बी० एम० नायर (आई० सी०-19419 ए), इन्फैन्ट्री, 1 अगस्त, 1988 ।
आर० के० प्रभाकर (आई० सी०-28202 एक्स), इन्फैन्ट्री—1 अगस्त, 1988 ।	आर० एस० रनावत (आई० सी०-19420 पी), इन्फैन्ट्री, 1 अगस्त, 1988 ।
एम० एम० एल० शर्मा (आई० सी०-28235 एच), इन्फैन्ट्री—1 अगस्त, 1948 ।	वार्ड० सी० कश्यप (आई० सी०-19421 एकन), सिगनल— 1 अगस्त, 1988 ।
पृथिपाल सिंह (आई० सी०-26890 एच), इन्फैन्ट्री— 1 अगस्त, 1988 ।	जे० के० एस० सराधो (आई० सी०-19423 एच), इन्फैन्ट्री—1 अगस्त, 1988 ।
आर० एस० रावत (आई० सी०-19385 एक्स), इन्फैन्ट्री—1 अगस्त, 1986 ।	टी० आई० डोनल्ड (आई० सी०-19425 एन)— सिगनल—1 अगस्त, 1988 ।
ए० के० सामान्तरे (आई० सी०-19386 ए), आर्टिलरी— 1 अगस्त, 1988 ।	रेशम सिंह (आई० सी०-19426 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री— 1 अगस्त, 1988 ।
एस० के० जस्वाल (आई० सी०-19387 एच), इंजीनियर, —1 अगस्त, 1988 ।	वी० एस यादव (आई० सी० 19427 वार्ड), आर्टिलरी, 1 अगस्त, 1988 ।
आर० एस० जमवाल (आई० सी०-19390 एच), इंजीनियर—1 अगस्त, 1988 ।	जैड० यू० शा (आई० सी० 19429 के) आर्टिलरी— 1 अगस्त, 1988 ।
बी० एस० पवार (आई० सी०-19391 एल) आर्टिलरी— 1 अगस्त, 1988 ।	रामेन्द्रा कुमार (आई० सी०-19430 एक्स), इन्फैन्ट्री— 1 अगस्त, 1988 ।
पी० एस० श्रीमा (आई० सी०-19392 डब्ल्यू), ई० एम० ई०—1 अगस्त, 1988 ।	करमा वीर सिंह (आई० सी० 19431 एफ) सिगनल— 1 अगस्त, 1988 ।
एम० एस० माहारा, (आई० सी०-19394-वार्ड), इंजीनियर—1 अगस्त, 1988 ।	बी० के० गिरधर (आई० सी०-19432 के), सिगनल— 1 अगस्त, 1988 ।
डी० एम० सुमनवार (आई० सी०-19396 के), इन्फैन्ट्री— 1 अगस्त, 1988 ।	वार्ड० आर० त्यागी (आई० सी०-19435 एक्स) आर्टिलरी—1 अगस्त, 1988 ।
ए० एन० छतवाल (आई० सी०-19399 एक्स) इंजीनियर, 1 अगस्त, 1988 ।	एस० के० मपरू (आई० सी०-19436 ए), इन्फैन्ट्री— 1 सितम्बर, 1988 ।
वार्ड० एस० पंवर (आई० सी०-19401 के), सिगनल— 1 अगस्त, 1988 ।	आर० देशपांडे (आई० सी०-19438 एल), सिगनल— 1 सितम्बर, 1988 ।
रिपुदमन सिंह (आई० सी०-19403 पी), ए० थो० सी०— 1 अगस्त, 1988 ।	एम० शर्मा (आई० सी०-19440 एच), इन्फैन्ट्री— 1 सितम्बर, 1988 ।
ए० चौधरी (आई० सी०-19404 एक्स), आर्टिलरी— 1 अगस्त, 1988 ।	आर० एस० बेन्ज (आई० सी०-19443 डब्ल्यू), ए० सी० 1 सितम्बर, 1988 ।
ए० के० सबूजा (आई० सी०-19405 ए), आर्टिलरी— 1 अगस्त, 1988 ।	कृष्णा कुमार (आई० सी०-19444 वार्ड), ए० एस० सी० 1 सितम्बर 1988 ।
एम० पाण्डे (आई० सी०-19410 एल), इन्फैन्ट्री— 1 अगस्त, 1988 ।	

- आर० चोपड़ा (आई० सी०-19445 एफ), आदिलगरी—  
1 सितम्बर, 1988 ।
- पी० एन० मेहरा (आई० सी०-19447 एम), इन्फैन्ट्री,  
1 सितम्बर, 1988 ।
- विजय सिंह (आई० सी०-19448 पी), इंजीनियर—  
1 सितम्बर, 1988 ।
- ए० एस० सुपाहिया (आई० सी०-19452 एक्स),  
ए० एस० सी०—1 सितम्बर, 1988 ।
- एस० मुखर्जी (आई० सी०-19453 ए), इन्फैन्ट्री—  
1 सितम्बर, 1988 ।
- सी० एस० भाटिया (आई० सी०-19455 एल), इंजी-  
नियर—1 सितम्बर, 1988 ।
- आर० पी० गोपाल (आई० सी०-19456 एन),  
ए० ओ० सी०—1 सितम्बर, 1988 ।
- जे० आई० पीपल्ज (आई० सी०-19457 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री  
1 सितम्बर 1988 ।
- डी० एस० सन्धु (आई० सी०-19458 वाई) ए०ओ० सी०,  
1 सितम्बर 1988 ।
- इन्दरजीत सिंह (आई० सी०-19459 एफ), आदिलगरी—  
1 सितम्बर, 1988 ।
- जे० एस० जिन्द (आई० सी०-19463 के), ए० सी०—  
1 सितम्बर, 1988 ।
- एन० के० मुकुर्जी (आई० 19464 एम), इन्फैन्ट्री—  
1 सितम्बर, 1988 ।
- डी० गुलवादी (आई० सी०-19465 पी), आदिलगरी—  
1 सितम्बर, 1988 ।
- बी० पी० एस० जामवाल (आई० सी०-19466 एक्स)  
सिगनल—1 सितम्बर, 1988 ।
- एस० के० मेहता (आई० सी०-19468 एच), इन्फैन्ट्री—  
1 सितम्बर, 1988 ।
- ए० जी० परेरा (आई० सी०-19469-एल), ई० एम०ई०,  
1 सितम्बर, 1988 ।
- डी० भौमिक (आई० सी०-19470 डब्ल्यू), ए०ओ०सी०,  
1 अक्टूबर, 1988 ।
- एस० आर० पूरी (आई० सी०-19471 एच), ए० एस०  
सी०—1 अक्टूबर, 1988 ।
- रघुवीर सिंह (आई० सी०-19472 एल), इन्फैन्ट्री—  
1 अक्टूबर, 1988 ।
- वाई० भारद्वाज (आई० सी०-19474 डब्ल्यू) सिगनल—  
1 अक्टूबर, 1988 ।
- शिवकुमार सिंह (आई० सी०-19477 के), ए० एस० सी०,  
1 अक्टूबर, 1988 ।
- जी० के० निश्चल (आई० सी०-19478 एम) सिगनल—  
1 अक्टूबर, 1988 ।
- आई० एस० बाजवा (आई० सी०-19479 पी), ए० एस०  
सी०—1 अक्टूबर, 1988 ।
- के० एस० सन्धु (आई० सी०-19480 के), इन्फैन्ट्री—  
1 अक्टूबर, 1988 ।
- गुरमेल सिंह (आई० सी०-19488 डब्ल्यू), ए० एस०सी०,  
1 अक्टूबर 1988 ।
- जी० एस० परमार (आई० सी०-19489 वाई), ए०एस०  
सी०—1 अक्टूबर 1988 ।
- ए० एन० आचार्य (आई० सी०-19491 डब्ल्यू), ए० ओ०  
सी०—1 अक्टूबर, 1988 ।
- एस० एन० गुप्ता (आई० सी०-19493 एफ), ए० एस०  
सी०—1 अक्टूबर, 1988 ।
- एस० एस० रन्धावा (आई० सी०-19495 एम)  
इंजीनियर—1 अक्टूबर, 1988 ।
- एस० के० बुद्धवार (आई० सी०-19496 पी) सिगनल  
1 अक्टूबर 1988 ।
- एस० एस० मेहवीरता (आई० सी०-19499 एच),  
सिगनल—1 नवम्बर 1988 ।
- बी० के० सहगल (आई० सी०-19503 ए), सिगनल—  
1 नवम्बर 1988 ।
- ए० एन० शर्मा (आई० सी०-19505 एल), आदिलगरी—  
1 नवम्बर, 1988 ।
- पी० के० महाजन (आई० सी०-19506 एन), आदिलगरी,  
1 नवम्बर, 1988 ।
- आर० ए० शर्मा (आई० सी०-19508 वाई), ए० एस०  
सी०—1 नवम्बर, 1988 ।
- सी० बी० विजन (आई० सी०-19510 डब्ल्यू), आदिलगरी,  
1 नवम्बर, 1988 ।
- एस० के० गंग (आई० सी०-19511 वाई), आदिलगरी—  
1 नवम्बर, 1988 ।
- बी० के० निम्बावन (आई० सी०-19512 एफ), ए०ओ०  
सी०—1 नवम्बर, 1988 ।
- जे० एस० मनकोटिया (आई० सी०-19513 के), इन्फैन्ट्री,  
1 दिसम्बर, 1988 ।
- एम० ए० के० चौधरी (आई० सी०-19515 पी), आदिलगरी—  
1 दिसम्बर, 1988 ।
- आर० टण्डन (आई० सी०-19517 ए), आदिलगरी—  
1 दिसम्बर, 1988 ।
- आर० आनन्द (आई० सी०-19520 ए), आदिलगरी—  
1 दिसम्बर, 1988 ।

आर० उपाध्याये (आई० सी०-19521 एच), ए० एस० सी०—1 दिसम्बर, 1988।

सुभाष चन्दा (आई० सी०-19523 एन), सिगनल—1 दिसम्बर, 1988।

ए० जैरथ (आई० सी०-19527-के) सिगनल—1 दिसम्बर, 1988।

ओ० एल० वाही (आई० सी०-19528 एम), आर्टिलरी—1 दिसम्बर, 1988।

एस० के० माकन (आई० सी०-19531 एम), सिगनल—1 दिसम्बर 1988।

इन्दरपाल सिंह (आई० सी०-19532 पी), सिगनल—1 जनवरी 1989।

बी० के० मनचन्दा (आई० सी०-19533 एक्स), इंजीनियर—1 जनवरी, 1988।

यू एस यादवा (आई० सी० 19536 एल) आर्टिलरी—01 जनवरी, 1989।

राम करन सिंह (आई० सी० 19539 वाई) ईएमई—01 जनवरी 1989।

तेजिन्दर सिंह (आई० सी० 19540 एन) इंजीनियर—01 जनवरी, 1989।

डी० एस० सैनी (आई० सी० 19543 एफ) इनफैंटरी—01 जनवरी, 1989।

पी० एस० हालीकेरी (आई० सी० 19545 एम) इनफैंटरी—01 जनवरी, 1989।

आर० एन० बालागोपाल (आई० सी० 19546 पी) आर्टिलरी 01 जनवरी, 1989।

पी० एन० घई (आई० सी० 19547 एक्स) आर्टिलरी—01 जनवरी, 1989।

ए० के० जयाल (आई० सी० 19548 ए) इनफैंटरी—01 फरवरी 1989।

बी० बी० एस० राओ (आई० सी० 19549 एच) इंजीनियर—01 फरवरी, 1989।

आर० के० मेहता (आई० सी० 19550 एक्स) इनफैंटरी—01 फरवरी, 1989।

यू० एस० मेहता (आई० सी० 19552 एच) ई एम ई—01 फरवरी 1989।

राज पाल (आई० सी० 19554 एन) ए एस सी—01 फरवरी 1989।

राजेन्द्र सिंह (आई० सी० 19556 वाई) ए एस सी—01 फरवरी, 1989।

एस० मेहता (आई० सी० 19557 एफ) आर्टिलरी—01 फरवरी 1989।

एच० बी० भल्ला (आई० सी० 19561 के) इनफैंटरी—01 फरवरी 1989।

एम० एम० जोशी (आई० सी० 19563 पी) इंजीनियर—01 फरवरी 1989।

पी० चोपड़ा (आई० सी० 19568 एन) आर्टिलरी—01 फरवरी, 1989।

एम० एस० माण्ड (आई० सी० 19569 डब्ल्यू) ए एस सी—01 फरवरी 1989।

एस० के० शर्मा (आई० सी० 19570 एल) आर्टिलरी—01 फरवरी, 1989।

एस० के० मुखर्जी (आई० सी० 19572 डब्ल्यू) इन्टकोर—01 फरवरी, 1989।

जे० एस० सहगल (आई० सी० 19573 वाई) इनफैंटरी—01 मार्च, 1989।

बी० चड्ढा (आई० सी० 19574 एफ) ए एस सी—01 मार्च, 1989।

एम० एस० सोहल (आई० सी० 19575 के) आर्टिलरी—01 मार्च, 1989।

आई० एस० रीन (आई० सी० 19576 एम) आर्टिलरी—01 मार्च, 1989।

पी० जी० पवार (आई० सी० 19577 पी) इनफैंटरी—01 मार्च 1989।

एम० काडाकेल (आई० सी० 19581 एक्स) ए एस सी—01 मार्च, 1989।

आर० एल० कौल (आई० सी० 19586 डब्ल्यू) ए एस सी—01 मार्च 1989।

एम० एन० कौशिक (आई० सी० 19587 वाई) ए एस सी—01 मार्च, 1989।

आर० विवान (आई० सी० 19591 एफ) सिगनल—01 मार्च 1989।

एन० के० अर्जुना (आई० सी० 19593 एम) ए एस सी—01 मार्च, 1989।

एम० पी० एस० कपिल (आई० सी० 19595 एक्स) सिगनल—01 मार्च, 1989।

प्रभजोत सिंह (आई० सी० 19596 एल) ए ओ सी—01 मार्च 1989।

आर० सी० विद्यार्थी (आई० सी० 19601 ए) सिगनल—01 मार्च, 1989।

गुरुधरन सिंह (आई० सी० 19604 एन) आर्टिलरी—01 मार्च, 1989।

- आर०एस० सोरम (आई० सी० 19605 डब्ल्यू)सिगनल—  
01 मार्च, 1989 ।
- मोहन लाल (आई० सी० 19606 वाई) ए एस सी—01  
मार्च, 1989 ।
- ए०एम० पाण्डन (आई० सी० 19607 एफ) सिगनल—01  
अप्रैल, 1989 ।
- एस०के० पण्डालाई (आई० सी० 19608 के)आर्टिलरी—  
01 अप्रैल, 1989 ।
- बी०एस० रावत (आई०सी० 19612 एम)ए एस सी—01,  
अप्रैल, 1989 ।
- आर०एस० बेदी (आई०सी० 19615ए) ई एम ई—01 अप्रैल  
1989 ।
- एस०के० शर्मा(आई० सी० 19617 एल) आर्टिलरी—01  
मई, 1989 ।
- एस०के० घोष (आई० सी० 19618 एन) इनफैंटरी—01  
मई, 1989 ।
- ए०ए० अठाले (आई० सी० 19620 एल) इनफैंटरी—01  
मई, 1989 ।
- एम० महबूबानो (आई० सी० 19622 डब्ल्यू)आर्टिलरी—  
01 मई, 1989 ।
- वाई०सी० यादव (आई०सी० 19625 के)ए एस सी—01 मई  
1989 ।
- बी०बी० दालवी(आई०सी० 19629 ए)इनफैंटरी—01 मई,  
1989 ।
- आर०के० कपिल(आई०सी० 19636 डब्ल्यू)एम एफ—01 मई,  
1989 ।
- जी०एन० रैड्डी (आई०सी० 19638 एफ)ए एस सी—01 मई,  
1989 ।
- आई०एम० जयराम(आई०सी० 19641 एफ)इंजीनियर—01  
मई, 1989 ।
- रघुनाथ मिह (आई०सी० 19656 के) ए एस सी—01 मई'  
1989 ।
- गजराज सिंह(आई०सी० 19657 एम) ए एस सी—01 मई,  
1989 ।
- एस० बेनर्जी(आई०सी० 19659 एक्स) सिगनल—01 मई  
1989 ।
- पी०के० गाबा(आई०सी० 19666 एन) ई एम ई—01 मई,  
1989 ।
- ई० एम० प्रतापसिंह (आई०सी० 24453 के) ई एम ई—  
10 जून 1989 ।
- डी०एस० मिह (आई०सी० 24455 पी)सिगनल—01 जून,  
1989 ।
- वी०के० भुसारी(आई०सी० 24456 एक्स)इंजीनियर—01  
जून, 1989 ।
- डी०एस० टुकराल(आई०सी० 24457 ए)इंजीनियर—01  
जून 1989 ।
- रघुजीत सिंह (आई०सी० 24459 एल) इंजीनियर—01  
जून 1989 ।
- जे०एस० बगर(आई० सी० 24460 ए)सिगनल—01 जून,  
1989 ।
- एन०एन० पसुपथी(आई० सी 24461 एच) ई एम ई—01  
जुलाई 1989 ।
- अजीम छिडे(आई०सी० 20967 के)सिगनल—01 अगस्त,  
1988 ।
- एन०एम०सी भण्डारी (आई० सी० 21173 एल) सिगनल—  
01 अगस्त, 1988 ।
- रिपुदमन मिह (आई०सी० 22606 के)ए ओ सी—01 अगस्त  
1988 ।
- के०एस० गर्चा (आई०सी० 16880 एल)ए सी—01 अगस्त,  
1988 ।
- डी०सी० कोरला (आई०सी० 17106 एल) ए ओ सी—01  
अगस्त, 1988 ।
- एम०एस० पठानियां (आई०सी० 17260 एफ) ए ओ सी—  
01 अगस्त 1988 ।
- गुरकिरपाल सिंह (आई०सी० 17298 एल) आर्टिलरी—  
01 अगस्त, 1988 ।
- आर०एस० खोखर(आई०सी० 17396 एल)इंजीनियर—01  
अगस्त, 1988 ।
- पी०बी० गुप्ता(आई०सी० 23254 के)ई एम ई—01 अगस्त  
1988 ।
- टी०जी०बी० नाथेर(आई०सी० 26065 एल)ए एस सी—01  
अगस्त 1988 ।
- बी०बी० धारनी (आई०सी० 26220 एफ) ए ओ सी—01  
अगस्त, 1988 ।
- पी०के० सत्याल (आई०सी० 17570 एम) सिगनल—01  
अगस्त 1988 ।
- के०एस० रतरा(आई०सी० 17775 एफ) आर्टिलरी—01  
अगस्त 1988 ।
- सी० गंगाधरम (आई०सी० 17780 एम)आर्टिलरी—01  
अगस्त, 1988 ।
- एस०गुहा(आई०सी० 23607 वाई) इंजीनियर—01 अगस्त,  
1988 ।

विरेन्द्र कुमार (आई सी 26268 पी) ए ओ सी—01  
अगस्त 1988।

आर एस राना (आई सी 26344 डब्ल्यू) ए सी—01 अगस्त,  
1988।

एम मारकस (आई सी 26074 एम) इंजीनियर—01  
अगस्त, 1988।

लक्ष्मी चन्द (आई सी 26097 एन) ई एम ई—01 अगस्त,  
1988।

टी जे एस मोदी (आई सी 26194 एल) इनफैंटरी—01  
अगस्त, 1988।

एच एस बिन्दरा (आई सी 26218 के) ए ओ सी—01  
अगस्त, 1988।

इकबाल सिंह (आई सी 19172 के) इनफैंटरी—01 अगस्त  
1988।

जी एन टण्डन (आई सी 19232 एन) ए ओ सी—01  
अगस्त, 1988।

एम एस अहलुवालिया (आई सी 19268 एम) आर्टिलरी  
01 अगस्त, 1988।

के एच एस शेखावत (आई सी 19288 ए) इनफैंटरी—  
01 अगस्त, 1988।

एस पी गंगोपाध्याय (आई सी 24055 एच) इंजीनियर—  
01 अगस्त, 1988।

एस के शर्मा (आई सी 24093 वाई) इंजीनियर—01  
अगस्त, 1988।

ए के सांधी (आई सी 24135 ए) इंजीनियर—01 अगस्त,  
1988।

एस के सिन्हा (आई सी 24157 वाई) सिगनल—01  
अगस्त, 1988।

के भोजा राजु (आई सी 24159 के) ई एम ई—01 अगस्त,  
1988।

#### स्थाई कमोशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (चयन  
द्वारा)—

वाई पी एस बहिया (आई सी -26475-  
एफ )-इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

सी एस बाहरा (आई सी -26500-बी )-  
आर्टिलरी—01 अगस्त 1988।

जे एस कांग (आई सी -26503-एच )-  
इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

यु पी षट (आई सी -26508-एफ )-ए  
एस सी —01 अगस्त 1988।

सी के पास्ती (आई सी -26511-एफ )-  
आर्टिलरी—01 अगस्त 1988।

एन वी एन बिस्ट (आई सी -26528-पी )  
-इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

के सी खनोरिया (आई सी -26546-एक्स )  
-इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

एस के निद्योगी (आई सी -26556-एफ )  
-इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

आर एस सहारन (आई सी -26569-वाई )  
-इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

सी ए गनापथी (आई सी -26592-एफस)  
-इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

एस एल नरासिंहन (आई सी -26597-  
एल )-ए एस सी —01 अगस्त 1988।

आर० के० मलहोत्रा (आई० सी०-26598-एन० )  
-आर्टिलरी—01 अगस्त 1988।

आर० एस० सन्धु (आई० सी०-26607-के०)-  
आर्टिलरी—01 अगस्त 1988।

एस० एस० बिन्ट (आई० सी०-26619-वाई०)-  
इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

जे० एस० सरकारिया (आई० सी०-26652-डब्ल्यू )  
-आर्टिलरी—01 अगस्त 1988।

आर० पी० कौशिक (आई० सी०-26701-एन )  
-इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

आई० एस० सन्धु (आई० सी०-26720-वाई० )  
-ए० सी०—01 अगस्त 1988।

आर० एस० नेगी (आई० सी०-26734-वाई०)-  
इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

एम० के० कालरा (आई० सी०-26736-के०)-  
इन्फैंट्री—01 अगस्त 1988।

एस० बी० साबनिस (आई० सी -26770-के०)-  
ए० एस० सी०—01 अगस्त 1988।

प्रेम कुमार (आई० सी०-26782-वाई )-आर्टिलरी  
—01 अगस्त 1988।

पी० के० शर्मा (आई० सी०-26795-डब्ल्यू०)-  
ए० एस० सी०—01 अगस्त 1988।

राज सिंह (आई० सी -26674-पी०)-इन्फैंट्री—  
01 अगस्त 1988।

ए० के० शर्मा (आई० सी०-28090-एच०)-  
आर्टिलरी—01 अगस्त 1988।

बी० बी० मुडकबी (आई० सी०-26710-पी०)-  
इंजीनियर—01 अगस्त 1988।

आर० एस० डोंगे (आई० सी०-26907-एल०)-  
इन्फैन्ट्री—01 अगस्त 1988।

पी० आनन्त (आई० सी०-26952-एच०)-आर्टिलरी  
—01 अगस्त 1988।

एस० के० गोयल (आई० सी०-28069-ए०)-  
इन्फैन्ट्री—01 अगस्त 1988।

मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल के मूल रैंक में (समय मान  
द्वारा) —

एम० के० कपूर (आई० सी०-28103-पी०)-  
इन्फैन्ट्री—30 अप्रैल 1990।

एन० एम० घेरजाखिया (आई० सी०-28107-एल०)  
—इंजीनियर—30 अप्रैल 1990।

छत्तरपाल सिंह (आई० सी०-28194-एफ०)-आर्टि०  
—30 अप्रैल 1990।

राजपूत कमल सिंह चन्द (आई० सी०-28117-  
पी०)-आर्टिलरी—30 अप्रैल 1990।

हरपाल सिंह (आई० सी०-28119-ए०)-इन्फैन्ट्री—  
30 अप्रैल 1990।

शर्मा धरमपाल (आई० सी०-28123-एच०)-इंजीनियर  
—30 अप्रैल 1990।

कपूर जगनाथ (आई० सी०-28131-एफ०)-ए० ब्रो०  
सी०—30 अप्रैल 1990।

एस के भोला (आई० सी०-28132-के०)-  
इंजीनियर—30 अप्रैल 1990।

डी के गुप्ता (आई० सी०-28135-एक्स०)-  
ए० ब्रो० सी०—30 अप्रैल 1990।

आर्य किशन राम (आई० सी०-28137-एच०)-  
ए० ब्रो० सी०—30 अप्रैल 1990।

सिंह गिरिजानन्द (आई० सी०-28144-वाई०)-  
ए० ब्रो० सी०—30 अप्रैल 1990।

रविन्दर कुमार (आई० सी०-28145-एफ०)-ए०  
ब्रो० सी०—30 अप्रैल 1990।

डी० कोस्टा जोसफ एन जी (आई० सी०-28146  
-के०)-आर्टिलरी—30 अप्रैल 1990।

शर्मा श्याम विहारी (आई० सी०-28147-एम०)  
—इंजीनियर—30 अप्रैल 1990।

एस० सी० खन्ता (आई० सी०-28150-एम०)-  
ए० ब्रो० सी०—30 अप्रैल 1990।

राय श्री राम (आई० सी०-28153-ए०)-सिगनल  
—30 अप्रैल 1990।

एम० एस० विल्लन (आई० सी०-28156-एम०)  
—इन्फैन्ट्री—30 अप्रैल 1990।

विनय पाल (आई० सी०-28165-पी०)-आर्टिलरी  
—30 अप्रैल 1990।

बोधड़ा जी० सिंह (आई० सी०-28170-ए०)-  
आर्टिलरी—30 अप्रैल 1990।

फारिदाम अनसीम जोसफ (आई० सी०-28171-  
एच०)-सिगनल—30 अप्रैल 1990।

श्री एस विल्लन (आई० सी०-28174-इन्फैन्ट्री)  
—इन्फैन्ट्री—30 अप्रैल 1990।

रोषे बाजा किशोर (आई० सी०-28177-के०)-  
इंजीनियर—30 अप्रैल 1990।

पालमानाथोरा कुमार (आई० सी०-28178-एम०)-  
आर्टिलरी—30 अप्रैल 1990।

रस्तोगी अनिल कुमार (आई० सी०-28181-एम०)  
इन्फैन्ट्री—30 अप्रैल 1990।

यादव निहाल सिंह (आई० सी०-28182-पी०)-  
इन्फैन्ट्री—30 अप्रैल 1990।

नेगी बालेन्द्र सिंह (आई० सी०-28184-ए०)-इन्फैन्ट्री  
—30 अप्रैल 1990।

एच० पी० जोहर (आई० सी०-28184-के०)-  
ए० एस० सी०—30 अप्रैल 1990।

बेदी प्रितपाल सिंह (आई० सी०-28185-एम०)  
—इंजीनियर—30 अप्रैल 1990।

मेजर से लेफ्टिनेन्ट के मूल रैंक में (समय मान  
द्वारा) —

सुरेण कुमार (आई० सी०-28207-इन्फैन्ट्री)-ई०  
एम० ई०—30 अप्रैल 1990।

मिथा अशोक नाथ (आई० सी०-28211-वाई०)-  
ए० सी०—30 अप्रैल 1990।

जे० एस० अहलूवालिया (आई० सी०-28214-  
एम०)-इन्फैन्ट्री—30 अप्रैल 1990।

जोगिन्दर सिंह (आई० सी०-28217-ए०)-इन्फैन्ट्री  
—30 अप्रैल 1990।

ग्यानेन्दा पाल सिंह (आई० सी०-28221-एच०)  
—आर्टिलरी—30 अप्रैल 1990।

रथागी देवेन्द्रा (आई० सी०-28226-एफ०)-आर्टि०  
—30 अप्रैल 1990।

बेकामामिदी एल० एन० (आई० सी०-28232-पी०)  
—ए० ओ० सी०—30 अप्रैल 1990।

चड्ढा सोआमी नाथ (आई० सी०-28234-ए०)-  
इन्फैन्ट्री—30 अप्रैल 1990।

अहलूवालिया पी० सिंह (आई० सी०-28237-एन०)  
—आर्टिलरी—30 अप्रैल 1990।

- विस्ट हरपाल सिंह (आई० सी०-28243-एफ०)  
-इन्फैन्ट्री--30 अप्रैल 1990।
- आर० सी० गुप्ता (आई० सी०-28244-के०)-  
इन्फैन्ट्री--30 अप्रैल 1990।
- ओ० एस० त्रिपाठी (आई० सी०-28247-एक्स०)  
-ई० एम० ई०--30 अप्रैल 1990।
- सालगर श्रीधर (आई० सी०-28253-एल०)-  
इन्फैन्ट्री--30 अप्रैल 1990।
- पाण्डे जय शंकर (आई० सी०-28255-डब्ल्यू०)-  
इन्फैन्ट्री--30 अप्रैल 1990।
- रामासुब्रामनियम (आई० सी०-28257-एफ०)-ई०  
एम० ई०--30 अप्रैल 1990।
- साम्बपाल अमरीक सिंह (आई० सी०-28260-  
एफ०)-इन्फैन्ट्री--30 अप्रैल 1990।
- निगगर जे० पी० एस० (आई० सी०-23273-पी०)  
आर्टिलरी--15 जून 1990।
- भाग सिंह (आई० सी०-23300-एन०)-ए० एस०  
सी०--15 जून 1990।
- एम० एन देवरानी (आई० सी० 23305 एम०) आर्टिलरी  
15 जून 1990।
- करतार सिंह (आई० सी०-23325-ए०)-ए० एस०  
सी०--15 जून 1990।
- ए० एल० एफ० जोग बहादुर (आई० सी०-23337-  
पी०)-इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- हेतराम (सं० आई० सी०-23339 ए) ए० एस० सी०--  
15 जून 1990।
- डी०एस० सिरोही (सं० आई० सी०-23346 डब्ल्यू०)  
ए० सी०--15 जून 1990।
- हवा सिंह (सं० आई० सी०-23364 वाई) इन्फैन्ट्री--  
15 जून 1990।
- एस० एस० छिबबर (सं० आई० सी०-23368 पी) ए०  
सी०--15 जून 1990।
- डी०एस० मुल्तानी (सं० आई० सी०-23373 ए) इन्फैन्ट्री--  
15 जून 1990।
- चक्रधर जोशी (सं० आई० सी०-23374 एल) ए० ओ०  
सी०--15 जून 1990।
- एच० एस० लक्षर (आई० सी०-23377-डब्ल्यू०)  
-इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- बहा सपन कुमार (आई० सी०-23385-पी०)-  
इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- बी० एस० रन्धावा (आई० सी०-23388-एच०)-  
ए० ओ० सी०--15 जून 1990।
- प्रधान सुकुल (आई० सी०-23390-ए०)-इन्फैन्ट्री--  
--15 जून 1990।
- मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल के मूल रैंक में (समय  
मान द्वारा) :-
- रावत राजेन्द्रा सिंह (आई० सी०-23404-पी०)-  
इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- मेहरा सुरीन्द्र (आई० सी०-23405-एक्स०)-  
आर्टिलरी--15 जून 1990।
- एस० एस० डडवाल (आई० सी०-23406-ए०)  
इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- आर० एम० दहिया (आई० सी०-23407-एच०)-  
इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- के० पी० शर्मा (आई० सी०-23413-डब्ल्यू०)-  
ए० एस० सी०--15 जून 1990।
- डोगरा कुलदीप सिंह (आई० सी०-23415-एफ०)  
-इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- एस० बी० भसीन (आई० सी०-23416-के०)-इन्फैन्ट्री  
--15 जून 1990।
- राम सिंह (आई० सी०-23418-पी०)-ए० एस०  
सी०--15 जून 1990।
- त्यागी दाल चन्द (आई० सी०-23421-पी०)-  
इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- बी० एस० सिगार (आई० सी०-23433-के०)-  
इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- प्रभात सिंह (आई० सी०-23435-पी०)-इन्फैन्ट्री--  
15 जून 1990।
- अजीत सिंह (आई० सी०-23441-एच०)-इन्फैन्ट्री--  
15 जून 1990।
- ओ० मुहम्मद (आई० सी०-23442-एल०)-आर्टि  
--15 जून 1990।
- रनजीत सिंह (आई० सी०-23444-डब्ल्यू०)-सिगनल  
--15 जून 1990।
- ए० के० बच्चा (आई० सी०-23448-एम०)-  
आर्टिलरी--15 जून 1990।
- रावा जीवन कुमार (आई० सी०-23450-के०)-  
इन्फैन्ट्री--15 जून 1990।
- सुरीन्द्र सिंह ओबराय (आई० सी०-23455-एच०)  
आर्टिलरी--15 जून 1990।
- गोवाल सुब्बा (आई० सी०-23457-एम०)-ए०  
एस० सी०--15 जून 1990।
- भुपेश डडवाल (आई० सी०-23459-वाई०)-ए०  
ओ० सी०--15 जून 1990।



ठिन्ड बलदेव सिंह (आई० सी०-23464-के०)-  
इन्फैन्ट्री-15 जून 1990।

जे० के० शर्मा (आई० सी०-23465-एम०)-आर्टि-  
लरी-15 जून 1990।

जसवाल हजूर सिंह (आई० सी०-23467-एकम०)  
-इन्फैन्ट्री-15 जून 1990।

बेनर्जी सुप्रिया (आई० सी०-23468-ए०)-इन्फैन्ट्री  
-15 जून 1990।

शेर सिंह (आई० सी०-23471-ए०)-इन्फैन्ट्री-  
15 जून 1990।

राज वीर सिंह (आई० सी०-23472-एच०)-इन्फैन्ट्री  
-15 जून 1990।

प्रेम नाथ (आई० सी०-23480-एफ०)-इन्फैन्ट्री-  
15 जून 1990।

एस० आर० चौधरी (आई० सी०-23481-के०)-  
इन्फैन्ट्री-15 जून 1990।

एल० पी० अग्रवाल (आई० सी०-23483-पी०)  
-पायोनियर कोर -15 जून 1990।

अरोरा बलवन्त राय (आई० सी०-23488-एन०)-  
ए० ओ० सी०-15 जून 1990।

ओम प्रकाश (आई० सी०-23489-डब्ल्यू०)-इन्फैन्ट्री  
-15 जून 1990।

जोशी जोषिन चन्द्रा (आई० सी०-23492-डब्ल्यू०)  
-15 जून 1990।

एन० डी० पराशर (आई० सी०-23496-एम०)  
-आर्टिलरी-15 जून 1990।

सरीन सुशील कुमार (आई० सी०-23497-  
पी०)-इन्फैन्ट्री-15 जून 1990।

शर्मा ओम प्रकाश (आई० सी०-23498-एकम०)  
-ए० ओ० सी०-15 जून 1990।

मन्डल अशीश कुमार (आई० सी०-23499-ए०)-  
इन्फैन्ट्री-15 जून 1990।

मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल के मूल रैंक में (समय  
मान द्वारा);—

एस० एस० टी० भानम (आई० सी०-23503-  
एकम०)-आर्टिलरी-15 जून 1990।

शाम खाल (आई० सी०-23506-एल०)-इन्फैन्ट्री-  
15 जून 1990।

शिव कुमार (आई० सी०-23509-आई०)-ए० एस०  
सी०-15 जून 1990।

एम० एस० सोलंकी (आई० सी०-23512-आई०)  
आर्टिलरी-15 जून 1990।

3-394GI/90

लिम्बु दीपक (आई० सी०-23514-के०)-इन्फैन्ट्री-  
15 जून 1990।

राम बहाल सिंह (आई० सी०-23517-एकम०)-  
ए० एस० सी०-15 जून 1990।

एल० एस० रावत ठाकुर (आई० सी०-23520-  
एकम०)-इन्फैन्ट्री-15 जून 1990।

पी० सी० परवाना (आई० सी०-23523-एल०)  
-इन्फैन्ट्री-15 जून 1990।

चेष्टर्जी विलीप (आई० सी०-23526-आई०)-इन्फैन्ट्री  
-15 जून 1990।

तिवारी आर० एल० (आई० सी०-23529-एम०)  
ए० एस० सी०-15 जून 1990।

लेहरी अशीश कुमार (आई० सी०-23530-एफ०)  
-ए० ओ० सी०-15 जून 1990।

अमर सिंह (आई० सी०-23577-एम०)-ए०  
सी०-15 जून 1990।

आर० एन० द्विवेदी (आई० सी०-23578-पी०)-  
ए० एस० सी०-15 जून 1990।

एस० के० चक्रवर्ती (आई० सी०-23596-एकम०)  
-ए० ई० सी०-15 जून 1990।

मिश्रा राम नाथ (आई० सी०-23624-आई०)-  
ए० ई० सी०-15 जून 1990।

महरोत्रा विष्णु कान्त (आई० सी०-23633-ए०)-  
ए० ई० सी०-15 जून 1990।

ए० सदा शिवन (आई० सी०-25370-एल०)-  
सिगनल-16 जून 1990।

ए० पी० सतीश (आई० सी०-25385-एन०)-  
सिगनल-16 जून 1990।

जे० जेकब (आई० सी०-25389-के०)-इंजीनियर  
-16 जून 1990।

एस० ए० तामहानी (आई० सी०-25401-ए०)-  
इंजीनियर-16 जून 1990।

एस० के० ओबराय (आई० सी०-25402-एच०)-  
ई० एम० ई०-16 जून 1990।

नेगी सुरजीत सिंह (आई० सी०-28492-ए०)-  
आर्टिलरी-21 जून 1990।

डी० सी० कटोन  
ल० कर्नल, सहायक सेना सचिव

(थल सेना)

सं० 1699, दिनांक 20-11-91 —राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर

अनिल कुमार (आई० सी०-35718) ए० ओ० सी०,  
पी० आर० पाटिल (आई० सी०-35737) ए० एस० सी०,

एस० बी० राऊत (आई० सी०-35753) ए० ओ० सी०  
—16 दिसम्बर 89।

अरुण मुकजी (आई० सी०-35187) इनफैंट्री, के०  
के० सरकार (आई० सी०-35268) इनफैंट्री, डी० सी०  
ककटी (आई० सी०-35279) इनफैंट्री, 10 जून 89।

एम० पी० एस० ककरा (आई० सी०-35238)  
इन्फैंट्री।

10 जून 89 (वेतन और भत्ते के लिए 03 सितम्बर  
90)

अशुतोष धर (आई० सी०-356622) ए० एस०  
सी०—16 दिसम्बर 89।

गिरीश कुमार (आई० सी०-39812) इंजीनियर्स—  
13 जून 90।

अतर सिंह (आई० सी०-25737) —21 मई  
90।

(वेतन और भत्ते के लिए 03 सितम्बर 90)

जगदीश कुमार (आई० सी०-35940) ए० एस०  
सी०—09 जून 90।

सी० धवन (आई० सी० 17284) ई० एम० ई०—  
25 जून 1981।

#### ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

कर्नल बी० प्रकाश (आई० सी०-11055) से० मे०, त्रि०  
से०मे० इन्ट०, कोर—21-1-88 से परन्तु ज्येष्ठता 6-11-85 से  
तनख्वाह और पेंशन पर असर डाले बिना दी जायेगी।

कर्नल एस० पी० मलहोत्रा, (आई० सी०-11217),  
इन्ट० कोर—26-8-88 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और  
पेंशन पर असर डाले बिना 1-5-86 से दी जायेगी।

कर्नल प्रकाश चन्द्र, (आई० सी०-11651), ए० ओ०  
सी०-1-8-88 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और पेंशन पर  
असर डाले बिना 20-12-86 से दी जायेगी।

कर्नल ए० के० सूरी, (आई० सी०-11963) आर्टी-  
लरी—11-1-89 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और पेंशन पर  
असर डाले बिना 22-12-86 से दी जायेगी।

कर्नल के० ए० पाटील, (आई० सी०-12227), एम०  
एफ०—24-6-88 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और पेंशन  
पर असर डाले बिना 1-4-87 से दी जायेगी।

कर्नल जी० के० साहनी, (आई० सी०-12336)  
इन्ट० कोर—1-5-89 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और  
पेंशन पर असर डाले बिना 3-11-87 से दी जायेगी।

कर्नल आर० एफ० लोबो, (आई० सी०-12420)  
सिग्नल्स—20-6-88 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और पेंशन  
पर असर डाले बिना 1-2-88 से दी जायेगी।

कर्नल एम० एस० शर्मा, (आई० सी०-12440)  
ए० ओ० सी०—25-10-89 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह  
और पेंशन पर असर डाले बिना 1-2-88 से दी जायेगी।

कर्नल ए० एम० जैन, (आई० सी०-13846) ई०  
एम० ई०—16-9-88 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और  
पेंशन पर असर डाले बिना 1-7-88 से दी जायेगी।

कर्नल एम० एल० नामा (आई० सी०-13853) इंजी-  
नियर्स—2-7-88।

कर्नल के० के० कपाड़ी, (आई० सी०-13860) ई०  
एम० ई०—2-7-88।

कर्नल रघुनंदन (आई० सी०-14296) वि० से० मे०,  
सिग्नल्स —(2-7-88)।

कर्नल यू० एम० अरोड़ा, (आई० सी०-14299) ई०  
एम० ई०—2-7-88।

कर्नल एम० एल० भन्डारी (आई० सी०-14318)  
ई० एम० ई०—2-7-88।

कर्नल जी० बवलानी (आई० सी०-14325) इंजी-  
नियर्स—3-12-88 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और पेंशन  
पर असर डाले बिना 2-7-88 से दी जायेगी।

कर्नल आर० एस० बैस (आई० सी०-14327) ई०  
एम० ई०—9-1-89 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और पेंशन  
पर असर डाले बिना 2-7-88 से दी जायेगी।

कर्नल आर० सी० श्रीधरन (आई० सी०-14312)  
ई० एम० ई०—8-6-89 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और  
पेंशन पर असर डाले बिना 2-7-88 से दी जायेगी।

कर्नल टी० पी० चन्द्रन (आई० सी०-13856) ई०  
एम० ई०—20-5-89 से परन्तु ज्येष्ठता तनख्वाह और पेंशन  
पर प्रभाव डाले बिना 2-7-88 से दी जायेगी।

कर्नल वी० वी० प्रभुदेसाई (आई० सी०-14301)  
वि० से० में, ई०एम० ई०—7-4-89 से परन्तु ज्येष्ठता  
तनख्वाह और पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 2-7-88 से  
दी जायेगी।

#### कैप्टन से मेजर

जे० सी० पांडे (आई० सी०-36929) जे० ए० जी०  
—17 नवम्बर 88।

एस० एस० शोखावत (आई० सी०-38429), पी०  
के० यादव (आई० सी०-38430) इनफैंट्री, बलजीत सिंह  
(आई० सी०-38432) ए० एस० सी०, डी० बहूगुणा  
(आई० सी०-38434) इनफैंट्री, डी० सी० कोटीभास्कर

(आई० सी०-38435) आर्टी, जतिन्द्रपाल (आई० सी० 38436) मैक इनफेंट्री, आर० वी० बगा (आई० सी०-38437) आर्टी०, बाई० वी० प्रमाद (आई० सी०-38438), समीर बिसारिया (आई० सी०-38439), मागर सिंह (आई० सी०-38440), दिवाकर डोगरा (आई० सी०-38441) इनफेंट्री, एम० के० कोल (आई० सी०-38442) आर्टी०, राजीव मिरोही (आई० सी०-38443) ए०सी०, एम० जी० आर० शिरोदकर (आई० सी०-38444), जे० कृष्ण (आई० सी०-38445), जी० वाई० लिम्बा (आई० सी०-38446), एम० सी० जगलान (आई० सी०-38447) इनफेंट्री, जे० कुमार नायर (आई० सी०-38448) आर्टी०, जे० ए० रोकी (आई० सी०-38451) ए० ई० सी०, ओ० पी० ठाकुर (आई० सी०-38453) इनफेंट्री, जी० मुकर्जी (आई० सी०-38455), एच० सी० एम० गुलाटी (आई० सी०-38456) आर्टी०, आर० सादासिवन (आई० सी०-38457) इनफेंट्री, सिद्धार्थ गुहा (आई० सी०-38458), एफ० बी० सिंह (आई० सी०-38459) इनफेंट्री, एन० एम० राणा (आई० सी० 38460) ई० एम० ई०, आर० पी० श्रीवास्तवा (आई० सी०-38461) इनफेंट्री, विभल कुमार (आई० सी० 38462) आर्टी०—22 दिसम्बर 90।

बी० डी० सिंह (आई० सी०-38509), इन्फैंट्री, एम० एन० पी० शाही, (आई० सी०-38511), आर्टी, ए० ए० भोक्ता (आई० सी०-38513), ए० सी०, वी० टी० वेंकटेश (आई० सी०-38514), आर्टी, वी० अनटनी (आई० सी० 38515), आर्टी, डी० एन० गुप्ता (आई० सी०-38517) मनी राम (आई० सी०-38518), एम०एस० राव, (आई० सी०-38519), इन्फैंट्री, हरजनपाल सिंह (आई० सी०-38520) आर्टी, वी० सी० नारायनन (आई० सी०-38525) आर्टी, वी० आर० रामपाल (आई० सी०-38527), आर्टी, संजीव महाय (आई० सी०-38529), मैक इन्फैंट्री, वी० टी० सेनानी (आई० सी० -38530), आर्टी, पी० के० मोहन्ता, (आई० सी०-38532) आर्टी, राजेश सूब (आई० सी०-38533), पी० वी० बरगेश (आई० सी०-38534), इन्फैंट्री, जैबंस सिंह (आई० सी०-(आई० सी०-38536), ए० सी०, वी० के० मण्डल (आई० सी०-38541), इन्फैंट्री, वी० एन० इन्नाहीम (आई० सी०-38542), ए० के० थापा (आई० सी०-38543), के० रामाचन्द्रन (आई० सी०-38545), ए० के० लाल (आई० सी०-38546), के० एम० मोहन (आई० सी०-38547), इन्फैंट्री, एम० के० कपूर (आई० सी०-38548), आर्टी, हिम्मत सिंह गुप्ता (आई० सी०-38524) आर्टी—22 दिसम्बर, 1990।

बाई० एस० महीवाल (आई० सी०-38363), आर० के० सक्सेना (आई० सी०-38364), इन्फैंट्री, ए० यू० जोशी (आई० सी०-38365) सिग्नल, डी० एम० यादव (आई० सी०-38366), लालन छोबे (आई० सी०-38368) आर्टी०, सुरेश राना (आई० सी०-38369), ए० भो० सी०, डी० मलहोत्रा (आई० सी०-38370), सुब्रिन्द्र सिंह (आई० सी०-

38371), एल० एम० चमोला (आई० सी०-38373), इन्फैंट्री, ए० के० गर्ग (आई० सी०-38374), डी० के० रोले (आई० सी०-38375) आर्टी०, डी० डी० मोहिन्द्रा (आई० सी०-38376), पंकज सिन्हा (आई० सी०-38377) इन्फैंट्री, राजिन्द्रा मैनन (आई० सी०-38379), एन० ए० वाशिगटन (आई० सी०-38380) आर्टी०, आर० एस० राठोर (आई० सी०-38381), ए० भो० सी०, पी० के० बिशनोई (आई० सी०-38382), आर्टी०, वी० एम० चौधरी (आई० सी०-38383) ए० एस० सी०, जसचिन्दर सिंह (आई० सी०-38384) आर्टी०, मम राज सिंह (आई० सी०-38386), इन्फैंट्री, वी० पी० सिंह (आई० सी०-38389) ए० भो० सी० रमणजीत सिंह (आई० सी०-38390), अजय कुमार (आई० सी०-38391), इन्फैंट्री, वी० भूषण (आई० सी०-38393), ए० भो० सी०, जे० एल० मलिक (आई० सी०-38394), इन्ट—22 दिसम्बर, 1990।

पी० शशीधरण (आई० सी०-38387), इन्फैंट्री, राजेश त्यागी (आई० सी०-38388), इन्जीनियर्स—22 दिसम्बर, 1990।

रघुबीर सिंह  
सी० एस० ओ०  
डी० ए० एम० एम० 8सी

सं० 1700, दिनांक 11 दिसम्बर, 1991—निम्नलिखित नियुक्ति की जाती है :—

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

श्री आदित्य नारायण सिंह, सहायक, डी० जी० एन० सी०सी० को सशस्त्र सेना मुख्यालय की सिविल सेवा में दिनांक 13-11-91 [(पूर्वाह्न) से रु० 2000-60-2300-ब० रो० 75-3200-100-3500 के वेतनमान में स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (ग्रुप बी राजपदित) के रूप में नियुक्त किया गया है। तथा उसी तारीख से रक्षा अनुसंधान [तथा विकास संगठन की नफरी पर लिया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः अन्तरिम और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वायर वर्ष 1990 की रिट याचिका सं० 439—खोसला तथा अन्य बनाम भारत सरकार में निर्णय के अनुसार वरिष्ठता सूची में संशोधन तथा सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा संबंधित मामलों में देय निर्देशों पर आधारित है।

एस० लोमानाथन  
उप-मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशासन)

(नौसेना शाखा)

सं० 1701, दिनांक 20 नवम्बर 1991—राष्ट्रपति, विनियमावली भाग 3 सांविधिक के विनियम 121 के अधीन

भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नौसेना शाखा

(स्थायी कमीशन)

सब-लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

सब लेफ्टिनेंट—35वां इन्टेग कोर्स	पदोन्नति की तिथि
आर० के नायर (03408-डब्ल्यू)	1 जनवरी, 91
पी० चौहान (03378-ए)	—वही—
अजित कुमार (03399-ज्येड)	—वही—
ए० के० रस्तोगी (03423-बी)	—वही—
आर० परमार (03415-के)	—वही—
वाई० साहनी (03434-बी)	—वही—
वी० के० पिणरोडी (03411-ए)	—वही—
डी० कुमार (03392-एच)	16 जनवरी, 91
एच० एस० सापरा (03448-के)	1 मार्च, 91
आर० मिश्रा (03406-आर)	—वही—
ओ० पी० वर्मा (03412-बी)	—वही—
एस० भल्ला (03371-के)	—वही—
एस० के० धींगरा (03380-एफ)	16 मार्च, 91
एस० रिशिराज (03417-आर)	1 अप्रैल, 91
यू० के० भारद्वाज (03372-एन)	16 अप्रैल, 91
वी० आर० पेशवे (03410-ज्येड)	1 मई, 91
जी० वी० भूपन (03385-टी)	—वही—
सी० डिसूजा (03383-एन)	16 मई, 91
ए० के० माथुर (03403-एच)	1 जून, 91
एम० के० कुकरेती (03398-वाई)	—वही—
आर० एम० परमार (03409-वाई)	—वही—
वी० बहल (03369-एफ)	16 जून, 91
वी० के० माहनी (03430-डब्ल्यू)	—वही—
डी० आर० कुलकर्णी (03396-टी)	—वही—
ए० के० सिंह (03429-टी)	9 जुलाई, 91
डी० के० स्वैन (03428-आर)	16 जुलाई, 91
जी० एस० कैलकट (03400-ए)	—वही—
आर० पी० सिंह (03436-एच)	—वही—
बी० एम० चौहान (03374-टी)	1 अगस्त, 91
एस० के० धवन (03382-के)	—वही—
विवेक कुमार (03397-डब्ल्यू)	16 अगस्त, 91
ए० अम्बस्था (03368-बी)	16 जून, 91
एम० एस० राघवन (03418-टी)	1 अप्रैल, 91
एम० एस० रहमान (03421-जेड)	1 अगस्त, 91

वी० सिंह (03424-एफ)	16 जुलाई, 91
एन० के० श्रीवास्तवा (03426-के)	16 अगस्त 91
गिरीश धवन (03447-एच)	1 जुलाई, 91
आर० बनर्जी (03370-एच)	—वही—
एम० के० गुप्ता (03387-वाई)	16 जून, 91
एम० कुमार (03393-के)	—वही—
एन० के० कुलकर्णी (03395-आर)	1 सितम्बर, 91
ए० जे० नोरोन्हा (03407-टी)	16 मार्च, 91
एम० सी० मिनोचा	
सी० एम० ओ०	
महायक कार्मिक निवेशक (जे ओ ए एण्ड आर)	

वायु शाखा

सं० 1702, दिनांक 13 दिसम्बर, 1991—राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:—

भारतीय वायुसेना

वैमानिक शाखा

आर० के० बन्धु (8363) वैमा० इंजी० (एल्कैट)	—2 अप्रैल, 1990।
ओ० पी० सूब (7989) वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—	*2 अप्रैल, 1990।
जे० एम० कालरा, वी० एस० एम० (7999), वैमा० इंजी०—(यांत्रिक)—	2 अप्रैल, 1990।
एम० एम० सेरकुदीन, वी० एम० एम० (8501), वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—	2 अप्रैल, 1990।
प्रताप सिंह, वी० एस० एम० (8897) वैमा० इंजी०—(एल्कैट)—	2 अप्रैल, 1990।
आर० सी० चौधरी (7988) वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—	2 अप्रैल, 1990।
अजीत महाय (8297) वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—	2 अप्रैल, 1990।
हृदेश माथुर (9689) वैमा० इंजी० (एल्कैट)—	21 मई 1990।
वी० खन्ना (9577) वैमा० इंजी० (एल्कैट)—	21 मई, 1990।
आर० पी० शर्मा, वी० एम० एम० (10063) वैमा० इंजी० (एल्कैट)—	21 मई, 1990।
एम० पी० मकसेना (9951) वैमा० इंजी० (एल्कैट)—	21 मई, 1990।
बी० के० तिवारी (10319) वैमा० इंजी० (एल्कैट)—	21 मई, 1990।

आर० के० देसाई, वी० एस० एम० (10078) वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—1 जून, 1990।

वी० के० नायर, वी० एम० एम० (10085) वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—1 जून, 1990।

आर० पी० गोयल (10283) वैमा० इंजी० (एलैक्ट)—1 जून, 1990।

एम० पी० सिंह, वी० एस० एम० (10699) वैमा० इंजी० (एलैक्ट)—1 जून, 1990।

एन० के० महार्षि (7628) वैमा० इंजी० (एलैक्ट)—1 दिसम्बर, 1990।

टी० ए० किमती (7322) वैमा० इंजी० (एलैक्ट)—1 अक्टूबर 1990।

#### वैमा० इंजी० शाखा

विगकमाण्डर से ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:—

एस० के० ग्रोवर (8017), वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—2 अप्रैल, 1990।

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन आर० के० बन्धु (8363), वैमा० इंजी० (एलैक्ट) और ओ० पी० सूद (7989) वैमा० इंजी० (यांत्रिक) के मध्य बरीयता सूची में आएगा।

प्रबुमन सिंह (9384) वैमा० इंजी० (एलैक्ट)—9 अप्रैल, 1990।

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन अजीत सहाय (8297) वैमा० इंजी० (यांत्रिक) और हृदय माथुर (9689), वैमा० इंजी० (इलैक्ट) के मध्य बरीयता सूची में आएगा।

पी० एम० माथुर (7618) वैमा० इंजी० (इलैक्ट) 1 अक्टूबर, 1990।

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन एन० के० महार्षि (7628) वैमा० इंजी० एलैक्ट और टी० ए० किमती 7322 वैमा० इंजी० (यांत्रिक) के मध्य बरीयता सूची में आएगा।)

आर० मुरलीधरन (7929) वैमा० इंजी० (एलैक्ट)—21 मार्च, 1991।

आर० एन० दास, वी० एस० एम० (7896), वैमा० इंजी० (एलैक्ट)—21 मार्च, 1991।

एस० के० कौल (7872) वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—21 मार्च, 1991।

ए० यू० मुखविहारी (8811), वैमा० इंजी० (यांत्रिक)—21 मार्च, 1991।

एस० तंकपन सह निदेशक कार्मिक (अफसर) 2 (ए)

सं० 1703, दिनांक 13 दिसम्बर 1991—राष्ट्रपति, वा० से० अनु०-15/76 के अन्तर्गत निम्नलिखित पायलट अफसरों को अन्तिम अल्पकालिक कमीशन छोड़ने की मंजूरी देते हैं और स्थायी कमीशन 12 मास के लिए परबन्धीन प्रदान करते हैं:—

#### भारतीय वायु सेना

##### मौसम विज्ञान शाखा

अनिल कुमार देव रानी (19988), ए० एडवर्ड जोसेफ (19989) और मनीष मिश्रा (19987)—16 दिसम्बर, 1989 से।

बी० यू० पिल्ले  
स्क्वाड्रन लीडर,  
महा० निदेशक का० (अफ०) 3 (डी)

##### प्रशासन शाखा

सं० 1704, दिनांक 3 दिसम्बर 1991—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अफसर को मूल रैंक पदोन्नति किया है, उन्हें उनके नाम के आगे दी गई तारीख से फ्लाइंग अफसर के मूल रैंक में लिया जाता है:—

#### भारतीय वायु सेना

पायलट अफसर पी० एस० (18619)—6 दिसम्बर, 1988 से।

पायलट अफसर जे० पी० एम० जासल (18625)—6 दिसम्बर, 1988 से।

सं० 1705, दिनांक 2 दिसम्बर 1991—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अफसर को मूल रैंक पर पदोन्नति किया है। उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाइंग अफसर के मूल रैंक में लिया जाता है:—

#### भारतीय वायु सेना

##### (प्रशासन शाखा)

पायलट अफसर ए० वी० मूथल (19920), वी० वी० भारदा (19921), राजेश वर्मा (19922), कुमुद शेट्टी, (19923), एन० ए० अलेक्जेंडर (19924), एन० चन्द्रा, (19925) एन० शिवाकुमार (19926), वी० एस० हरदाम (19927) जे० वी० राणा (19928), आर० राजन (19929) सोनी मिश्रा (19930), विरेन्द्र सिंह (19931), ए० शुक्ला (19932), एस० पाण्डेय (19933)—14 जून 91 से।

## (परिभारिकी शाखा)

पायलट अफसर बी०एस० मनांग (19934), एन० किशोर (19935), ए० पी० रंगनाथन (19935), संजय कुमार मिश्रा (19937), पी० के० नायर (19939), आर० के० श्रीवास्तव (19940), बी० शोणगथाम (19941), एस० दास (19942), पी० जे० जेदेव (19943), बी० सुन्दरासन (19944), एस० चोपड़ा (19945), ए० श्रीवास्तवा (19946), ए० राठीर (19947), ए० के० रनीक (19948), के० श्रीनिवासन (19938)—14 जून 91 से।

## (वायु शाखा)

सं० 1706, दिनांक 14-10-91—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें स्थाई कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया है कि पुष्टि करते हैं।

## भारतीय वायु सेना

## (प्रशासन शाखा)

पायलट अफसर अशीम कपूर (20580) अमान कपूर (20583), जसविन्दर सिंह गुरू (20589), राजीव एम० सिसोधिया (20593), वी० एस० एस० मदन (20595) सेमसन एम० पीटर (20601), अशुतोष कपूर (20606) 15 दिसम्बर 90 से।

## (परिभारिकी शाखा)

पायलट अफसर चन्द्रा शोब, भट्ट (20621), भागवत (20625)—15 दिसम्बर, 1990 से।

## (लेखा शाखा)

पायलट अफसर एस० के सिन्हा (20627), मी० आर्ई० मैथ्यू (20630), राज कुमार (20631), चार्लिस अरबन थोमस (20633), जोनसन थोमस (20634), प्रदीप मेहता (20637), अनील अरोड़ा (20638), प्रफुल्ला काला (20640), ए० सन भयूगा नाथन (20642), राब जोसेफ संजीव (20643)—15 दिसम्बर, 1990।

बी० यू० पिल्लै  
स्क्वाड्रन लीडर

ए डी पी ओ-3(डी)

## वायु शाखा

सं० 1707, दिनांक 4 दिसम्बर 1991—राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :—

## भारतीय वायु सेना

## (परिभारिकी शाखा)

ग्रुप कैप्टन से एयर कमांडर के मूल रैंक में:—

के० वी० अय्या (5813), परिभा०—2 जुलाई, 1990।  
आर० के० भूदानी (5813) परिभा०—13 अगस्त, 90।

एस० तंकपन  
सहा० निदे० कामिक (अफसर)/2(ए)

## सेना मुख्यालय

(जी०एस० शाखा)

## संशोधन

सं० 1708, दिनांक 4 दिसम्बर 1991—राजपत्रित अधिसूचना सं० ए-23456/डी जी एन/ए/मु० प्र०अ०/ए-7 दिनांक 9-9-91 में निम्नलिखित संशोधन, जोकि श्री भो० एन० मिश्रा, वरिष्ठ एकाउन्ट्स अधिकारी (ग्रुप ए) की प्रतिनियुक्ति की नियुक्ति से सम्बन्धित है, किया जाता है :—

के लिए : वरिष्ठ एकाउन्ट्स अधिकारी के पद पर 6 मास के लिए 27-8-91 (पूर्वाह्न) से नियुक्त।

पढ़ा जाए : वरिष्ठ एकाउन्ट्स अधिकारी के पद पर तीन वर्ष के लिए 27-8-91 (पूर्वाह्न) से, या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त।

एस० लोगनाथन  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्र०)

## यल सेना मुख्यालय

(ए० जी० शाखा)

सं० 1709, दिनांक 3 दिसम्बर, 1991—समास्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री राम मूर्ती शर्मा, सी०एस० भो० निवर्तन आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30-11-91 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त तथा 1-12-91 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित कर दिया गया।

एस० लोगनाथन  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

## (सेना शाखा)

सं० 1710, दिनांक 26 नवम्बर 1991—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके आगे लिखित तिथियों से उनके साधारण निवृत्ति की आयु के प्राप्त करने पर सेना की सेवा से निवृत्त करते हैं :—

## नियमित सेना स्थायी कमीशन

कर्नल सुरज मल पानू (आई० सी०—15322 एल).  
ए० एस० सी०—28 फरवरी, 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल धक्कापत वरियथ अम्बथन (आई० सी०-18261 डब्ल्यू) ए० एस० सी०-28 फरवरी 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल पाराइल नारायणन कुट्टी (आई० सी०-21716 एम) ए० एस० सी०-28 फरवरी 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल शक्ति कुमार भल्ला (आई० सी०-18895 एम) ए० एस० सी०-28 फरवरी 1991 (अपराह्न) ।

मेजर बाना राम शर्मा (आई० सी०-17607 एच) ए० एस० सी०-28 फरवरी 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी०एस०) विरेन्द्र कुमार महाजन (आई० सी०-16747 एच) ए० एस० सी०-28 फरवरी 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी०एस०) नरेन्द्र सिंह सन्धू (आई० सी०-17791 आई) ए० एस० सी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल अश्विनी कुमार सवानी (आई० सी०-20358 ए) ईन्ट कोर-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल चिडाम्बरम कुडिल शेषाद्रि (आई० सी०-22174 ए) सिगनल्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल विजय कुमार चड्ढा (आई० सी०-21696-के) सिगनल्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल ओम प्रकाश भाटिया (आई० सी०-18631-एल) सिगनल्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) रघुबीर कुमार (आई० सी०-20686 एन) सिगनल्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल भूपाल चन्दरा लहिरी (आई० सी०-18629 एन) इंजीनियर्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) सटेन्टली सुशील नथानियल रिपुबन (आई० सी०-13049 एन) इंजीनियर्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) तारोफ सिंह कौशल (आई० सी०-14233 एम) इंजीनियर्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) सर्वेश कुमार प्रधान (आई० सी०-16462 डब्ल्यू) इंजीनियर्स-28 फरवरी 91 (अप०)

ले० कर्नल चान्तिरा थिमैया सोमैया (आई० सी०-18302 पी) आर्टी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल देविन्दर कृष्ण कपूर (आई० सी०-10437-एफ) आर्टी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल विष्णु लक्ष्मण बडोडकर (आई० सी०-22128 एल) आर्टी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) निर्मलजीत सिंह (आई० सी०-12095 एक्स) आर्टी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) हरभजन सिंह (आई० सी०-13011 एल) आर्टी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) हरवलजीत सिंह घिनसा (आई० सी०-13816 एच) आर्टी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) विरेन्द्र प्रकाश सक्सेना (आई० सी०-14246 के) आर्टी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) शिवा स्वामी बनर्जी (आई० सी०-18931 एम) आर्टी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कैप्टन पी०एन० शर्मा (एस० एल०-2333 एल) ए० ई० सी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कैप्टन वी० एन० चौधरी (एस० एल०-2425 एक्स) क्यू० एम०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कैप्टन पी०एस० पिल्लै (आर० सी० 8 एम) इंजीनियर्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कैप्टन सुरेन्द्र सिंह (आर० सी०-122 के) राज रीफ-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कैप्टन डी० बी० सिंह (आर० सी०-140 एम) ए० ओ० सी०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कर्नल भौमिक कुण्डल (आई० सी०-18503 एन) कुमाऊं-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कर्नल सुखचरण सिंह सधवेव (आई० सी०-18730-एन) पंजाब-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कर्नल असीश कुमार चक्रवर्ती (आई० सी०-18858-वाई) जक० एल० आई०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कर्नल कल्पनाथ राय (आई० सी०-20515 एफ) जाट-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कर्नल प्रीतम सिंह सोहल (आई० सी०-22069 के) जैक रीफ-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल करतार सिंह दलाल (आई० सी०-14507 एम) ट्रेनेडियर्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल भीखम सिंह, वी० आर० सी० (आई० सी०-14602 वाई) पंजाब-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल गुरमीत सिंह तेजा (आई० सी०-18030-ए०) एम० एल० आई०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल हंस राज मलिक (आई० सी०-18154पी) महार-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कर्नल छत्रपाल सिंह (आई० सी०-18722 पी) राजपूत 28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल ब्रजराज सिंह भदोरिया (आई० सी०-20068 एच) कुमाऊ-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) मेहन्दर सिंह (आई० सी०-13796 ए) राज रीफ-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) भगत सिंह मनरल (आई० सी०-13972 एम) असम-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) जगरूप सिंह (आई० सी०-16024 एन) 5 जी०आर०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) रमेश कुमार कंवर (आई० सी०-21088 एफ) ग्रेनेडियर्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) गिरीश चन्द्र तिवारी (आई० सी०-21414 ए) 11 जी० आर०-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल करतार सिंह बलाल (आई० सी०-15730-एच) ग्रेनेडियर्स-28 फरवरी 91 (अपराह्न)

कर्नल प्रेम चन्द्र मन्वाल (आई० सी०-18094 एल) गैर रीफ-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल दलजीत सिंह सिधू (आई० सी०-18713-एन) पंजाब-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल विविधन्दर कुमार सूद (आई० सी०-20058-वाई) 4 जी०आर०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) किरोड़ी लाल आर्या (आई० सी०-14669 एक्स) जाट-3 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) कुलतार चन्द (आई० सी०-14647 वाई) जाक रीफ-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) नारोता राम कौशिश (आई० सी०-14712 एन) गैर रीफ-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) पुष्पोत्तम गोरे (आई० सी०-14705 एक्स) एम० एल० आई०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी०एस०) आर० बी० फाडकार (आई० सी०-13028 वाई) 4 जी०आर०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) के० ए० माडिया (आई० सी०-13337 एफ) 3 जी०आर०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) रवीन्द्र कुमार झोगरा (आई० सी०-18570 वाई) 5 जी०आर०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) जलोचन सिंह मल्होत्रा (आई० सी०-20810 के) महार -31 मार्च 91 (अपराह्न)

मेजर तारा सिंह गिल (आई० सी०-17003 के) सीख एल० आई०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

मेजर गुमैल सिंह (एस० एल०-1941 ए) भिगनल्स-31 मार्च 91 (अपराह्न)

मेजर के०एम० कमलाकरण (एस० एल०-1673 एफ) इन्जीनियर्स-31 मार्च 91 (अपराह्न)

मेजर प्रेमनाथ (एस० एल०-1999 एक्स) आर० बी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

मेजर हरभजन सिंह (एस० एल०-1911 एच) क्यू० एम०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

मेजर राज कुमार पट्टू (एस० एल०-1848 वाई) क्यू० एम०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कप्तान आत्म सिंह (एस० एल०-2312 पी) सिगनलस-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कप्तान सी० पी० चरात्री (एस० एल०-2370 वाई) आर० बी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कप्तान सी० एस० मन्दर (एस० एल०-2366 डब्ल्यू) आर० बी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कप्तान धर्म सिंह दिल्ली (एस० एल०-2335 डब्ल्यू) ए० ई० सी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कप्तान के० टी० थर्की (आर० सी०-145) ए० बी० सी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कप्तान सूरत सिंह (आर० सी०-97) आर्टी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कप्तान राजनारायण (आर० सी०-92) ए० बी० सी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कप्तान एस० एल० संजिप्त (आर० सी०-58) ई० एम०ई०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कप्तान बहल चन्द (आर० सी०-19) पैरा-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कर्नल सुरेश शिवराम देसाई (आई० सी०-13071 ए) आर्टी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कर्नल सुन्नेसा अहथर स्वामिनाथन (आई० सी०-18339 डब्ल्यू) आर्टी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

कर्नल साधू सिंह चहल (आई० सी०-15475 एफ) आर्टी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल ओमेश कुमार भोपाल (आई० सी०-20443 एच) आर्टी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल शरद कुमार पाण्डे (आई० सी०-22118 एफ) आर्टी०-31 मार्च 91 (अपराह्न)



- कर्नल कोप्रमबल्लू वेंकटरामन राजगोपाल (आई० सी० 20339 पी) आर्टी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल ब्रजिन्दर लाल कौशल (आई० सी०-18733 एफ) आर्टी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल हनुमन्त सरोहा (आई० सी०-12721 डब्लू) आर्टी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल कुलवन्त सिंह (आई० सी०-21956 के) आर्टी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) रतन लाल (आई० सी०-15461 एफ) आर्टी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) बट्टाचरजी असित रंजन (आई० सी०-18585 एफ) आर्टी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल कवल सिंह (आई० सी०-18239 एल) ई० एम०ई०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- कर्नल राजिन्दर सिंह माणिया (आई० सी०-18584 बाई) ई०एम०ई०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल कूलबीर कृष्ण भाटिया (आई० सी०-16526 डब्लू) ई० एम०ई०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- कर्नल जीवन प्रकाश विजयवर्गिया (आई० सी०-15137 के) इन्जीनियर्स—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल विरेन्द्र कुमार अग्रवाल (आई० सी०-20960 ए) इन्जीनियर्स—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) रवि शरण सिंह सरोण (आई० सी०-22559 एक्स) इन्जीनियर्स—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल गोविंद भारती (आई० सी०-14988 के) ए० ई० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल राज बहादुर शर्मा (आई० सी०-20046 के०) सिगनल्स—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल हरिहरन रमणी (आई० सी०-18335 ए) ईन्ट कोर—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) विजय कुमार शर्मा (आई० सी०-15387 एल) सिगनल्स—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) रमेश प्रकाश शर्मा (आई० सी०-21535 एफ) ए० ई० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- कर्नल सन्तुल सिंह राणा (आई० सी०-17443 एक्स) ए० ओ० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल विरेन्द्र सिंह (आई० सी०-15242 ए) ए० एस० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल हरीश चन्द्र हुणिया (आई० सी०-20467 एम) ए० एस० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- मेजर भानु चन्द राणा (आई० सी०-17448 डब्ल्यू ए०) एस० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल कप्त सिंह बडेसरा (आई० सी०-21451 एन) ए० एस० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- मेजर अरेकर शरद यशवन्त (आई० सी०-17489 ए) ए० ओ० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- मेजर सुरेन्द्र सिंह कटारिया (आई० सी०-17073 एच) ए० ओ० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) पृथ्वी पाल सिंह बोहरा (आई० सी०-21164 के) ए० ओ० सी०—31 मार्च 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल जोगिन्दर सिंह (आई० सी०-17612 एन) ए० ओ० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल थानवेल जोसफ जार्ज (आई० सी०-13060 एन) ए० ओ० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल अन्निकुण्णा के० पिल्लै (आई० सी०-15291 एच) ए० ओ० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- मेजर एरबंस लाल कपूर (आई० सी०-20139 बाई०) ए० ओ० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- मेजर अमर सिंह वर्क (आई० सी०-16839 पी) ए० एस० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) प्यारा सिंह (आई० सी०-17012 एल) ए० एस० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) पदम सिंह राठोर (आई० सी०-17112 डब्ल्यू) ए० ओ० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- कर्नल विनोद प्रकाश कपूर (आई० सी०-13034 एम) सिगनल्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल जगे राम राणा (आई० सी०-18372 एन) ए० ई० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल रमेश कुमार खन्ना (आई० सी०-18899 एच) ए० ई० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) मैसूर गोपाल कृष्णन राव राममूर्ती (आई० सी०-21544 एच) सिगनल्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- कर्नल कुट्टेन्द्र व सुदेव प्रभाकर राव (आई० सी०-16767 डब्ल्यू) ई० एम० ई०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- ले० कर्नल (टी० एम०) शिवराज (आई० सी०-20627 एफ) मैक इन्फैन्ट्री—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)
- कर्नल विनोद कुमार नरुल (आई० सी०-1897) इन्जीनियर्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल रमेश चन्द्र शर्मा (आई० सी०-22093 ए) इन्जीनियर्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) थोमस मैथू (आई० सी०-22711 ए) इन्जीनियर्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) सुरेश बलवन्त जाधव (आई० सी० 13290 एफ) इन्जीनियर्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) प्रताप सिंह (आई० सी०-20753 एन) इन्जीनियर्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कर्नल बहजन सिंह (आई० सी०-15596 एच) आर्टी—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल महेन्द्र सिंह यादव (आई० सी०-21743 डब्ल्यू) आर्टी—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल जगतार सिंह दिल्ली (आई० सी०-20365 डब्ल्यू) आर्टी—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कर्नल अमृत पाल सिंह ग्रेवाल (आई० सी०-12936 पी) आर्टी—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) जगदीश चन्द्र शर्मा (आई० सी०-22246 वाई) आर्टी—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) जगजीत सिंह (आई० सी०-22933 पी) आर्टी—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) नाछत्र सिंह बुर्ण (आई० सी०-21528 एल) आर्टी—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) गुरुदेव सिंह ग्रेवाल (आई० सी०-18671 एम) आर्टी—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) योगेश्वर प्रसाद (एस० एल०-1772 के) आर० थो०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

मेजर श्रीराम यादवा (एस० एल०-2084 एक्स) क्यू० एम०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

मेजर आतम सिंह (एस० एल०-2125 डब्ल्यू) आर० थो०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

मेजर हुसैन सिंह (एस० एल०-2171 एल) ई० एम० ई०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

मेजर केहर सिंह (एस० एल०-2187 डब्ल्यू) क्यू० एम०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

मेजर पी० के० कुट्टी (एम० एल०-2240 डब्ल्यू) सिगनल्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

मेजर रोशन लाल शर्मा (एस० एल०-1985 एक्स) क्यू० एम०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

मेजर जोगा सिंह सिधू (एम० एल०-2319 वाई) ई० एम० ई०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान नवमणी राजा सिंह (एस० एल०-2604 एक्स) इन्जीनियर्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान करण सिंह गुल्ला (एम० एल०-2424 पी) क्यू० एम०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान एम० जी० कुट्टी (आर० सी०-28) ए० थो० सी०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान एन० पी० एम० पिल्लै (आर० सी०-29) सिगनल्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान एम० एम० देवलास (आर० सी०-50) ई० एम० ई०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान डी० एस० कैरा (आर० सी०-56) सिगनल्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान ए० जोसफ (आर० सी०-69) ई० एम० ई०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान के० पी० एस० नायर (आर० सी०-95) इन्जीनियर्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान एस० एस० यादवा (आर० सी०-96) सिगनल्स—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कप्तान सी० एस० छिन्ना (आर० सी०-131) ई० एम० ई०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कर्नल मेलार सिंह (आई० सी०-13880 ए) जाट—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कर्नल अमरीक सिंह, बी० आर० सी० (आई० सी०-18055 एम) सीख—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कर्नल देवेन्द्र सिंह भसीन (आई० सी०-12694 एक्स) मद्रास—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल महेशिन्धर सिंह पुनिया (आई० सी०-20366 वाई) सीख—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

कर्नल तेजेन्द्र सिंह कंवर (आई० सी०-12714 ए) असम—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल बलबीर सिंह पुनिया, बी० आर० सी० (आई० सी०-13361 एक्स) राजरीफ—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल शरद चन्दरा शुक्ला (आई० सी०-20798 एन) एम० एल० आई०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) तेज प्रताप सिंह धमोया (आई० सी०-18155 एक्स) महार—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) कुलदीप सिंह सिधू (आई० सी०-13068 ए) सीख एल० आई०—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) कर्म चन्द कटोच (आई० सी०-17247 एक्स) बिहार—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) मंगलोर दामोदर भाट (आई० सी०-13749 एच) मद्रास—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

## शिक्षा शाखा

ले० कर्नल (टी० एस०) दलधिवर सिंह (आई० सी०-12063 पी) सीख—30 अप्रैल 91 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी एस) कृष्ण सिंह जसरोतिया (आई० सी०-15765 वाई) जैकरीफ—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी एस) धाल कृष्ण सिखरी (आई० सी०-12104 एन) कुमाउं—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी एस) शम्भू नाथ सिंह (आई० सी०-14257 डब्ल्यू), राजपूत—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (टी एस) नरेन्द्र प्रताप सिंह (आई० सी०-21843 एफ) ग्रैनेडीयर्स—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (टी एस) रघुबीर सिंह पठानिया (आई० सी०-13827 पी) मद्रास—3 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (टी एस) मतेन्द्र मोहन साहो (आई० सी०-14643 एफ) डोगरा—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (टी एस) जगमान राय (आई० सी०-14598 एफ) गैर रीफ—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (टी एस) लाल चन्द तशातिया (आई० सी०-14656 ए) ग्रैनेडीयर्स—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (टी एस) बचन सिंह (आई० सी०-15776 एल) जाट—30 अप्रैल, 1991—अपराह्न)

कर्नल भवन सिंह मेहरा (आई० सी०-18039 पी) 1 जी० आर०—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल कृष्ण नन्द गिलवधाल (आई० सी०-13206 डब्ल्यू) 11 जी आर०—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल मोहन लाल चन्दन (आई० सी०-21381 ए) 8 जी० आर०—30 अप्रैल, 1991 (अपराह्न)।

पी० के० रामपाल कर्नल  
कर्नल एम एस सेवा निवृत्ति व निवृत्ति

## वायुसेना

सं० 1711, दिनांक 4 दिसम्बर 1991—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसरों को उनके सामने दी गई तारीख से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

## भारतीय वायुसेना

## उड़ान (पायलट शाखा)

विंग कमांडी० पाल (9837)—31-7-91 (ए डी)

ग्रुप कैप्टन ए० के० मुखीजा (6765)—14-5-90 (ए० डी०)

विंग कमांडी० जी० एन० परेलकर (11392)—31-8-90 (ए डी)

विंग कमांडी० राज कुमार (12190)—30-9-90 (ए डी)

विंग कमांडी० वी० पी० माधुर (11599)—15-2-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० एस० सी० सक्सेना (8839)—31-8-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० आर० एस० महोत्रा (8830)—28-2-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० राम चन्द्रा (6658)—30-11-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० ए० के० धवन (10718)—30-11-90 (ए डी)।

ग्रुप कैप्टन डी० पान्डे वैमा० इंजी० (इलेक्ट) (57227) (प्रशासन) 31-8-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० एम० शिवाकुमार (शिक्षा) (9347)—31-7-91 (ए० डी०)।

विंग कमांडी० सुरजीत सिंह (प्रशासन) (8049)—31-7-91 (ए० डी०)।

विंग कमांडी० एस० एस० कृष्णमूर्ति (11660) उड़ान (पायलट)—31-5-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० आर० बुने (10557) उड़ान (पायलट)—31-10-89 (ए डी)।

विंग कमांडी० एस० आर० हान्डा (11276) उड़ान (पायलट) 31-10-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० जे० जे० सिंह (95047) उड़ान (नेवि)—31-10-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० ए० के० बुटी (7814) उड़ान (नेवि)—31-5-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० जी० ए० सोडी वैमा० इंजी० (इलेक्ट) (11911) 30-9-90 (ए डी)

ग्रुप कैप्टन डी० एस० भिनहास वैमा० इंजी० (यांत्रिक) (6566)—30-9-90 (ए डी)।

विंग कमांडी० आर० ए० बोरिकर (वैमा० इंजी० (यांत्रिक) (12580)—31-1-91 (ए डी)।

एयर कमांडी० एस० एस० मुनिक (6246)—15-2-91 (ए डी)।

बी० बाला गोपालन

सक्शाइन लीडर

सहा० नि० (श०) अ० 3 (एफ)

कृते नि० (का०) वायु अफसर

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th January 1992

## DIRECTORATE OF TECHNICAL DEVELOPMENT AND PRODUCTION (AIR)

## DEFENCE AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE SERVICE

No. 1671, dated 13th November 1991.—The President is pleased to make the following promotion in DTD&P (Air), Ministry of Defence :—

Shri V N Shankar, Senior Scientific Officer Grade-II, OCRI (AA), DTD&P (Air), Ministry of Defence, Tiruchirappalli to be officiating Senior Scientific Officer Grade-I (SSO-I) in the same Establishment w.e.f. 31-10-91 (F/N) on probation for a period of two years.

No. 1672, dated 11th December 1991.—The President is pleased to make the following promotion :—

Air Commodore Anup S. Sethi (5479) Lgs. permanently seconded to DTD & P (Air) to be Air Vice Marshal (Local Acting Unpaid Rank) in the same establishment with effect from 27 Aug 1991 (F/N).

SHYAM SUNDER, Desk Officer

No. 1673, dated the 29th November, 1991.—The Director Technical Development and Production (Air), Ministry of Defence makes the following officiating promotions to the grade of Junior Scientific Officer :—

Name & Designation	Office	w.e.f.
1	2	3
S/Shri KV Venkatkrishniah, Foreman	Deptt. AAIW, Itarsi	22-07-91 (F/N)
SMS Gaur, Chief D' man	Deptt. AAIW, Itarsi	13-11-91 (F/N)

2. They shall be on probation for a period of two years from the respective dates of promotion.

Sd/-

VP AGGARWAL  
Asstt. Dir. (Admn.)

## DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 1674, dated the 19th November 1991.—The President is pleased to make the following appointment :—

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE

Dr Ranganathan Sundaresan, Scientist 'D' (ad hoc) of Defence Metallurgical Research Laboratory, Hyderabad to be temporary Scientist 'E' in the same Laboratory, with effect from 25-3-1991 (F/N).

No. 1675, dated 2nd December 1991.—The President is pleased to make the following appointment.

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE

Dr. R. K. Saxena, SSO-I of DGQA, New Delhi to be Scientist 'D' with effect from 3-9-1991 (FN) in Defence Material & Stores Research & Development Establishment, GT Road, Kanpur on deputation basis for a period of two years.

No. 1676, dated the 23rd September 1991.—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri S. D. Thaman, to be temporary Senior Accounts Officer on transfer basis in DRDO HQs in the pay scale of Rs. 3000—4500/- with effect from 09-08-1991 (F/N).

NARSINGH DASS, Assistant Director (Pers.)

R.C.P.O.

No. 1677, dated the 26th November 1991.—The following amendment to Gazette Notification No. A/23456/DGN/A/CAO/A-7(A) dated 14-06-1991 regarding appointment of Shri O. P. Gupta, to the Gde. of Senior Accounts Officer (Gp. 'A'—Gazetted) in the pay scale of Rs. 3000—4500/- on deputation basis is made :—

For : Appointed Senior Accounts Officer for six months with effect from 31-05-1991 (FN).

Read : Appointed Senior Accounts Officer for three years with effect from 31-05-1991 (FN) or till further orders, whichever is earlier.

S. LOGANATHAN,  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

D.G.Q.A.

No. 1678, dated 8th November 1991.—The following Assistants (Group 'B'—Non-Gazetted) are appointed as officiating Assistant Civilian Staff Officers (Group 'B'—Gazetted) in the AFHQ Civil Service w.e.f. 11 Oct 1991 (FN) until further orders—

Shri Rameshwar Dayal Sharma

Smt. Mandira Bhattacharjee

The above promotions are purely provisional and the individuals do not have any claim to seniority or further promotions based on this promotion.

## DIRECTORATE GENERAL RESETTLEMENT

No. 1679, dated 15th November 1991.—Shri Kehar Singh, Civilian Staff Officer is appointed as Selection Grade Officer of AFHQ Civil Service under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 for the period from 02-7-1991 to 31-12-1991, or till the regular incumbents become available, whichever is earlier, subject to the ultimate decision of the Central Administrative Tribunal in Registration No. 838 of 1986—Smt. Sashwati Rao Vs. Union of India and other related cases pending in the Courts.

No. 1680, dated 2nd December 1991.—Shri M. M. Lal, Asstt. is appointed as offg. ACSO on local basis from 1-8-1991 to 9-10-1991 vice Shri S P S Yadav, ACSO retired on 1-8-1991 (FN).

ARMY RANCH

DTE. GEN. N.C.C.

No. 1681, dated 21st February 1991.—Shri Balak Ram, Asstt. is appointed as offg. ACSO on local basis from 1-7-1991 to 9-10-1991 vice Shri Baldev Ram, ACSO retired on 30-6-1991.

S. LOGANATHAN,  
Deputy Chief Administrative Officer

SANYUK SACHIV (PRA) AVAM MUKHYA PRASHA-

SANIK ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 1682, dated 25th November, 1991.—The Competent Authority has approved the appointment of the undermentioned Assistant Civilian Staff Officer (Group 'B' Gazetted) in a sub-

stantive capacity, in the Armed Forces Headquarters Civil Service with effect from the date shown against her name :

Name	Office	Date from which appointed in a substantive capacity	Position assigned against permanent ACSOs
1	2	3	4
Kum. D Priyadarshini	R & D/ATVP	18-06-91	Below Sh. Rajesh Saxena

P. ANANTHA KRISHNAN  
Dy. Chief Admn. Officer (P)

#### ARMY HEADQUARTERS

(AG'S Branch)

No. 1683, dated 1st November 1991.—Approval of the competent authority has been accorded to the appointment of the following officers of AFHQ Civil Service and AFHQ Stenographers Service as Civilian Staff Officers under Rule 10(2) of Armed Forces Headquarter Civil Service Rules 1968 for the period from the dates indicated against their names upto 15-10-1991 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

S/Shri

H. K. Das—16-4-1991.

Smt. T Chandra Banu—16-4-1991.

Km. Ruby Adhikari—16-4-1991.

Ravi Dutt—16-4-1991.

Jai Prakash Dwivedi—16-4-1991.

Brahem Prakash Dahiya—16-4-1991.

K. L. Vohra—18-4-1991.

Smt. Manju Jhingan—16-4-1991.

Smt. Jayashree Galgotia—16-4-1991.

Jai Singh Rathi—16-4-1991.

Ramphal Khoba—16-4-1991.

Ram Kumar Chauhan—16-4-1991.

Pratap Singh Jatav—16-4-1991.

Lal Chand—16-4-1991.

Ram Swarup—16-4-1991.

G. B. Pant—16-4-1991.

P. P. Vats—16-4-1991.

T. N. Mohanan Nair—16-4-1991.

Indra Chand—16-4-1991.

Kishna Ram—16-4-1991.

Phool Singh—16-4-1991.

Gian Chand—16-4-1991.

Ram Singh—16-4-1991.

Tara Chand—16-4-1991.

Ram Murti Sharma—18-4-1991.

K. N. Subudhi—16-4-1991.

Ganpat Singh—16-4-1991.

2. These appointments are made purely as stop-gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

No. 1684, dated 31st October 1991.—Approval of the competent authority has been accorded to the appointment of Shri Arun Swarup, ACSO, of AFHQ Civil Service as Officiating Civilian Staff Officer on local basis from 13 Feb 1991 to 12 Aug 1991 and from 14 Aug 1991 to 24 Sep 1991 vice Shri K. L. Alloria, CSO proceeded on commuted leave.

#### ARMY BRANCH

(QMG's Branch)

No. 1685, dated 12th November 1991.—The appointment to the grade of Assistant Civilian Staff Officer in AFHQ Civil Service in respect of Shri D R Sharma is antedated from 1-12-1981 to 13-10-1981.

S. LOGANATHAN,  
Deputy Chief Administrative Officer

#### ARMY BRANCH

No. 1686, dated 9th December 1991.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of AI 3/S/70 :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt w.e.f. 25 Aug 1989 with seniority for promotion from 20 Apr 1985 but for increments of pay from 25 Aug 1984 on relinquishing their SSC w.e.f. 25 Aug 1989. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in the GN for grant of SC. By virtue of their seniority, they are promoted to the rank of Lt w.e.f. 25 Aug 1989 with seniority in that rank from 20 Apr 1987 :—

AJAY SHARAD DABHOLKAR (SS-31787 NOW IC-45362 N) INF.

SATISH CHAND KATOCH (SS-31789 NOW IC-45364 Y) AC.

PRAVESH PURI (SS-31791 NOW IC-45365 F) AC.

SANDEEP SINGH (SS-31792 NOW IC-45366 K) EME.

INDERJIT SINGH (SS-31793 NOW IC-45367 M) INF.

ELVIS D'MONTY (SS-31794 NOW IC-45368 P) INF.

BHASKER DEV BURMAN (SS-31795 NOW IC-45369 X) ASC.

GURKIRPAL SINGH MAMAK (SS-31797 NOW IC-45370 M) ASC.

DHANJAI PAL SINGH DADWAL (SS-31799 NOW IC-45371 P) INF.

PADAM KUMAR YADAV (SS-31800 NOW IC-45372 X) AC.

DHIRENDRA MOHAN SHARMA (SS-31801 NOW IC-45373 A) ARTY.

NARENDRA KUMAR KHAJURIA (SS-31802 NOW IC-45374 H) AC.

MUKESH KUMAR VAID (SS-31804 NOW IC-45376 N), AC.

AMEET SINGH (SS-31805 NOW IC-45377 W) AC.

ARVIND KUMAR SHUKLA (SS-31806 NOW IC-45378 Y) ARTY.

RAJIV PUNJ (SS-31807 NOW IC-45379 F) INF.

- NARINDER KUMAR (SS-31812 NOW IC-45380 W) ARTY.
- ANOOP SINGH NEGI (SS-31815 NOW IC-45383 K) EME.
- SUKHWINDER PAL SINGH CHEEMA (SS-31816 NOW IC-45384 M) INF.
- JAGJEET SINGH (SS-31820 NOW IC-45386 X) EME.
- RAMINDER PAL SINGH (SS-31823 NOW IC-45387 A) ARTY.
- GURKIRAT SINGH (SS-31828 NOW IC-45389 L) EME.
- CARIAPPA MC (SS-31829 NOW IC-45390 A) ASC.
- NEERAJ SHARMA (SS-31830 NOW IC-45391 H) INF.
- ANIL KUMAR BAKSHI (SS-31831 NOW IC-45392-L) AC.
- DEBASHIS KHAN (SS-31832 NOW IC-45393 N) ARTY.
- P V V VIDHYASAGAR (SS-31834 NOW IC-45395 Y) EME.
- RAJESH KUMAR SHARMA (SS-31836 NOW IC-45399 P) ASC.
- RAMESH SAMPATH (SS-31841 NOW IC-45398 M) AC.
- RAJENDER SINGH (SS-31844 NOW IC-45399 P) ASC.
- BALWINDER SINGH (SS-31848 NOW IC-45401 F) ARTY.
- SUDHIR MOHAN (SS-31849 NOW IC-45402 K) INF.
- VIMAL MALLICK (SS-31851 NOW IC-45405 X) ARTY.
- PRAVEEN MANDOTRA (SS-31852 NOW IC-45406-A) AC.
- SANJAY BAJPAI (SS-31853 NOW IC-45407 H) ARTY.
- RAJINDER SINGH (SS-31855 NOW IC-45408 L) AC.
- M HARIPRASAD HEGDE (SS-31858 NOW IC-45409-N) EME.
- YOGINDER SINGH CHAUHAN (SS-31860 NOW IC-45410 H) EME.
- PRABODH KAIMAL (SS-31867 NOW IC-45413 W) ARTY.
- DINESH ALAGH (SS-31870 NOW IC-45416K) ASC.
- SATYENDRA PANDIT (SS-31872 NOW IC-45417 M) AC.
- VIPIN KUMAR BHATNAGAR (SS-31873 NOW IC-45418 P) ARTY.
- VIKASH CHANDRA CHITRAVANSHI (SS-31875 NOW IC-45419) JAG.
- AJAY KUMAR KHAJURIA (SS-31876 NOW IC-45420 M) EME.
- VIVEK MADHAV NIKTE (SS-31879 NOW IC-45421-P) ASC.
- PRAVESH KUMAR BHATIA (SS-31880 NOW IC-45422 X) AC.
- MANOJ KUMAR VII (SS-31889 NOW IC-45424 H) EME.
- RAJVIR SINGH (SS-31890 NOW IC-45425 L) ARTY.
- SOHAN SINGH (SS-31892 NOW IC-45426 N) AC.
- VENKATESWARA RAO SEETAMRAJU (SS-31902 NOW IC-45427 W) JAG.
- IDRISH KHAN (SS-31803 NOW IC-45375 L) AC.
- SURINDERPAL SINGH (SS-31813 NOW IC-45381-Y) AC.
- YOUTHVIR SINGH (SS-31814 NOW IC-45382 F) EME.
- SARBINDER SINGH SANDHU (SS-31847 NOW IC-45400 Y) AC.
- ASHOK KUMAR BALAKRISHNAN (SS-31826 NOW IC-45388 H) ASC.
- SANJIV GUPTA (SS-31840 NOW IC-45397 K) AC.
- SURYA PRAKASH BHATT (SS-31884 NOW IC-45423 A) EME.
- JASWINDER SINGH (SS-31878 NOW IC-45428 Y) AC.
- M NATRAJAN (SS-31786 NOW IC-45361 L) EME.
- BHAGAT SINGH (SS-31869 NOW IC-45415 F) EME.

No. 1687, dated 12th Decemcer 1991.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted PC in the rank of 2/Lt w.e.f. 18 Mar 1983 with seniority for promotion and increments of pay from 16 May 1976 on relinquishing their SSC w.e.f. 18 Mar 1983. Their inser-se-seniority vis-avis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in the Gazette Notification for the grant of SSC. By virtue of their seniority, they are promoted to the rank of Lt w.e.f. 18 Mar 1983 with seniority in that rank from 16 May 1978 —

TOMAS OUSEPH (SS-29084 NOW IC-37160 X) ENGRS.

PK RAMPAL  
Col

Col MS Retirement & Release

#### ARMY HEADQUARTERS (MS BRANCH)

No. 1688, dated 4th December 1991.—The competent authority appoin's Shri Jagdish Chander, Assistant as Offg Assistant Staff Officer (Gp 'B'—Gazetted) on local basis for the period from 17-6-1991 to 2-8-1991 vice Shri P C Sharma, ACSO proceeded on leave for 47 days.

S LOGANATHAN,  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

#### (ARMY BRANCH)

No. 1689, dated 12th December 1991.—The President is pleased to appoint Brig P.K. Puri (IC-13650) as Colonel of the Assam Regt. with effect from 03 Dec. 1991 (FN).

No. 1690, dated 12th December 1991.—The President is pleased to permit Lt. Gen. S. K. Pillai (IC-7335), PVSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Assam Regiment with effect from 30 Nov 1991 (AN).

P J SAXENA  
ACSO  
AMS(X)

No. 1691, dated 11th December 1991.—Approval of Competent Authority has been accorded to appoint the following Assistants to the post of officiating Assistant Civilian Staff Officers (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ

Civil Services with effect from the dates indicated against each until further orders :—

Shri J L Girdhar—11-10-1991.

Shri N K Ansal—11-10-1991.

Shri K K Saxena—11-10-1991.

The above promotions are purely provisional and the individuals do not have any claim to seniority or further promotions based on this promotion.

(NAVY BRANCH)

NAVAL HEADQUARTERS

No. 1692, dated 12th November 1991.—Shri R P Singh, Personal Assistant is appointed as Private Secretary (Steno Gde 'B') on temporary basis in the AFHQ Stenographers Service with effect from 7 Oct 1991 (FN) for a period upto and including 31 Dec 1991 or till persons from the Select List become available whichever is earlier.

2. Appointment of Sh R P Singh as Private Secretary, (Steno Gde B) on temporary basis is subject to the following conditions :—

- (a) His appointment is purely on temporary basis and he can be reverted without notice for administrative reasons.
- (b) He will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will his service rendered on temporary basis reckon for seniority.

No. 1693, dated 18th November 1991.—Shri S Maheswari, Assistant Civilian Staff Officer on local basis for the period from 7-10-1991 to 22-11-1991 vice Shri R S Verma, ACSO (proceeded on leave).

No. 1694, dated 27th November 1991.—The following Assistants are appointed as Officiating Assistant Civilian Staff Officer in the AFHQ Civil Service until further orders with effect from the dates shown against each :—

Shri Ved Kumar—11-10-1991.

Shri Bhuvnesh Chandra—14-10-1991.

Shri P. A. Pattait—11-10-1991.

Shri J. K. Bhatnagar—14-10-1991.

Shri O. P. Agarwal—11-10-1991.

Shri Dharam Chand—15-10-1991.

Shri K. L. Narula—11-10-1991.

Shri R. C. Dogra—11-10-1991.

Shri M. S. Sharma—11-10-1991.

2. The above promotions are purely provisional and the individuals do not have any claim to seniority or further promotions based on this promotion.

S LOGANATHAN,

Up-Mukhya Prashasan Adhikari

AIR HEADQUARTERS

No. 1695, dated 5th December 1991.—1. Shri Reoti Prasad, Asstt. Civilian Staff Officer of AFHQ Civil Service is appointed as Civilian Staff Officer under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules 1968 for the period from 11 Nov 1991 (FN) to 20 Apr 1992 (AN) or till regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. This appointment is made as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

S LOGANATHAN,

Deputy Chief Administrative Officer

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 1696, dated 2nd December 1991.—The President is pleased to make the following promotions :—

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE

The undermentioned Scientists 'B' of Armanent Research and Development Establishment, Pune to be officiating Scientists 'C' in the same Establishment with effect from 01st July, 1990 (F/N).

Shri M. A. Kumar

Shri S. K. Rastogi

Shri R. A. Panse

Shri M. L. Banerjee

Shri S. N. Huda

Shri M. G. Savant

Shri B. S. Virmani

Shri S. Subramaniam

Shri H. G. Srivastava

Shri M. P. Bhavathrathan

Shri B. V. Nadgauda

Shri K. V. Gorhe

Shri B. N. Das

Shri N. Parthasarathy

Shri V. M. Bam

Shri P. D. Bhate

Shri R. R. Gosavi

Shri S. S. Balakrishnan

Shri P. K. Ratnakaran

Shri P. Ramachandran

Shri S. A. Khan

Shri N. P. Barhate

Shri K. P. Tokekar

Shri D. T. Holay

Shri S. N. Katare

Shri M. P. S. Namboodiri

Shri C. R. Mani

Shri D. K. Duttgupta

Shri C. M. Ramakrishnan

Shri U. Balan

Shri I. Thomas

Shri K. M. Rajan

Shri B. S. Gugale

Shri G. G. Dutta

Shri S. V. Gade

Shri S. S. Gore

Shri A. S. Salukhe

Shri Y. P. S. Raghava

Shri R. T. Upasani

Shri P. K. S. Nair

Shri H. E. Sewell

Shri M. G. Rajadhyaksha

Shri S. M. Kale.

The undermentioned Scientists 'B' of Armanent Research and Development Establishment, Pune to be officiating Scien-

ts's 'C' in the same Establishments with effect from the date as shown against their names.

Shri Mahendra Jha—23-7-1990 (F/N).

Shri D. G. Joshi—05-7-1990 (F/N).

The undermentioned Scientists 'B' of Research Centre Imarat, Hyderabad to be officiating Scientists 'C' in the same Centre with effect from 01st July, 1990 (F/N).

Shri P. Venkataramana

Shri Kache Srinivasa

Shri M. S. Sri Ramu

Shri G. Sateesh Reddy

Shri M.V.Y.S. Ravi Kumar

Shri G. Gouri Shanker

Shri M. Prabhakar

Shri J.V. Prasad

Shri R. Anil Kumar

Shri D.V. Subba Rao

Shri A. Linga Murthy

Shri M. Ugender Reddy

Shri L. Sobhan Kumar

Shri S. Gopinath

Shri A.K. Chattopadhyay

Shri M. Suresh

Shri N. Manickam

Shri N. Sivannarayana

Shri J. Chattopadhyay

Shri M. Shanker Kishore

Shri Zahid Hussain

Dr. Zakwan Ahmed

Smt. P. Radha Rani

Shri N. Vivekanand

The undermentioned Scientists 'C' of T.B.R.L., Chandigarh to be officiating Scientists 'D' in the same Laboratory with effect from the dates shown against their names :—

Shri Manoj Bali—1-7-1990 (FN).

Shri Darshan Singh—1-7-1990 (FN).

Dr. L.K. Chaturvedi—16-7-1990 (FN).

The undermentioned Scientists 'C' of Research & Development Establishment (Engrs), Dighi, Pune to be officiating Scientists 'D' with effect from 1-7-1990 (FN) in the same establishment :—

Shri SS Kelkar

Shri PD Kane

The undermentioned Scientists 'C' of LRDE Bangalore to be officiating Scientists 'D' in the same Establishment with effect from 01-7-1990 (FN) :—

Shri V. N. Dabade

Shri G Boolchand

Shri Immanuel Jaykumar

Shri KS Murlidhara

Shri TD Vijayaraghavan

Shri N Ramanathan

SSHri KV Prahlada Rao

Shri KP Achutha Kumar

Dr. Raju Venkatanarayana

Dr. DC Pande

Shri MA Sunder Singh

The undermentioned Scientists 'B' of Combat Vehicles Research & Development Establishment, Madras to be officiating Scientists 'C' in the same Establishment with effect from the dates shown against their names :—

Smt Usha Narayanaswamy—1-07-1990 (F/N)

Smt. Nabanita Radhakrishnan—1-07-1990 (F/N)

Smt. Jayashree Shivkumar—1-07-1990 (F/N).

Smt. R. Santhi—1-07-1990 (F/N).

Smt. R. Prabhavathy—21-07-1990 (F/N).

Shri G.S.S. Sundararaj—1-07-1990 (F/N).

Shri B. Arul Jothi—1-07-1990 (F/N).

Shri J. Roop Chand—1-07-1990 (F/N).

Shri C. Govindarajan—1-07-1990 (F/N).

Shri A. Kumarasamy—1-07-1990 (F/N).

Shri S. Sridhar—1-07-1990 (F/N).

Shri S. Nallasivam—1-07-1990 (F/N).

Shri Jayashree Varadhan—1-07-1990 (F/N).

Shri G.K. Kumarvel—1-07-1990 (F/N).

Shri N. Ponnuswamy—1-07-1990 (F/N).

Shri Benjamin Lionel—1-07-1990 (F/N).

Shri U. Solomon—1-07-1990 (F/N).

Shri Kenneth Woods—1-07-1990 (F/N).

The undermentioned Scientists 'B' of Research and Development Headquarters, New Delhi to be officiating Scientists 'C' in the same Headquarters with effect from 01st July, 1990 (F/N).

Shri S.B. Goel

Shri H.D. Bhatt

The undermentioned Scientists 'B' of Aeronautical Development Establishment, Bangalore to be officiating Scientists 'C' in the same Establishment with effect from 1-07-1990 (F/N) :—

Shri Gopikanata Saha

Shri S. Venkatesan

Shri B.C.N. Setty

Shri A.P. Regukumar

Shri C.M. Tharakan

Shri M. Gurubasavaj

Shri G.S. Ravindra

Shri V. Ashok Rangan

Shri Jai Narayan

Shri A.V. Sabnis

Shri T. Mohan Reddy

Shri S. Thyagaraju

The undermentioned Scientists 'C' of DIPR Delhi to be officiating Scientists 'D' in the same Institute with effect from 01-7-1990 (FN) :—

Shri AK Adya

Shri Kanwar Sain

Shri TKH Nair

Shri MG Joseph, Scientist 'C' of Naval Physical & Oceanographic Laboratory Cochin to be officiating Scientist 'D' with effect from 1-7-1990 (FN) in the same Laboratory.

The following Scientists 'D' of Defence Science Centre, Delhi to be officiating Scientists 'E' in the same Centre with effect from 1-7-1990 (F/N) :

Dr. C.D. Pande

Dr. Ashok Kumar



Shri SR Bera, Scientist 'C' of ITR Chandipur to be officiating Scientist 'D' with effect from 01-7-90 (FN) in the same office.

Shri K Vijayakumar, Scientist 'C' of Naval Physical and Oceanographic Laboratory, Cochin to be officiating Scientist 'D' with effect from 01-7-90 (FN) in the same Laboratory.

Shri N Mohan Scientist 'C' of Defence Research and Development Laboratory, Hyderabad to be officiating Scientist 'D' with effect from 01-7-90 (FN) in the same Laboratory.

Shri SS Dange, Sc 'D' of ARDE Pune retired voluntarily from service with effect from 31-08-1991 (AN) and transferred to pension Establishment with effect from 01-09-1991 (FN).

Dr. GP Dimri, Sc 'C' of Defence Institute of Physiology and Allied Science, Delhi Cantt to officiating Scientist 'D' with effect from 01-7-1990 (FN) in the same Institute.

The undermentioned Scientists 'B' of Naval Science and Technological Laboratory, Vishakhapatnam to be officiating Scientists 'C' in the same Laboratory with effect from 01st July, 1990 (F/N).

Shri S. Surendran

Shri P. Timurtulu

Shri S. Naga Malleswara Rao

Shri K. Rama Jayathilagam

Shri S. Raja

Shri K.V.S.K. Apparao

Miss M. Sandhya

Shri R. Rajendran

Shri P.V.S. Ganesh Kumar

Shri A.V. Jaykumar

Shri A.K. Balasubramanian

The undermentioned Scientists 'D' of Defence Electronics Research Laboratory, Hyderabad to be officiating Scientists 'E' in the same Laboratory with effect from the dates as shown against their names :—

Sh. E.P. Sastry—1-7-1990 (FN).

Sh. R. Sankaranarayanan—1-7-1990 (FN).

Sh. C.K. Sukumaran—1-7-1990 (FN).

Sh. Kamal Kant—1-7-1990 (FN).

Dr. KB Srinivasa Chary—9-7-1990 (FN).

Sh. B. Bhaskar Rao—1-7-1990 (FN).

Sh. C.R. Venkataramanan—1-7-1990 (FN).

Sh. G.P. Sessa Sai—1-7-1990 (FN).

Sh. S. Balakrishnan—1-7-1990 (FN).

Sh. Rajat Pal—1-7-1990 (FN).

The undermentioned Scientists 'D' of Armament Research & Development Establishment, Pune to be officiating Scientists 'E' in the same establishment with effect from 01-07-1990 (F/N) :—

Sh. S. S. Sobti

Sh. K. John

Sh. M. R. Bhagia

Dr. H. S. Yadav, Scientist 'D' of Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences, Delhi to be officiating Scientist 'E' in the same institute with effect from 01-07-1990 (FN).

On attaining the age of superannuation, Shri SN Mehrotra, Scientist 'D' of Institute for Systems Studies & Analyses, Delhi retired from service with effect from 30-4-1991 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01-5-1991 (FN).

NARSINGH DASS, Assistant Director (Pers)

No. 1697, dated 25th September 1991.—The following promotion is made :—

Shri R. K. GUPTA, Accountant, Computer Centre, Delhi to be officiating Accounts Officer on notional basis in the DTD&P (AIR), New Delhi, with effect from 31-5-1990 (FN).

Shri RAGHUBIR SINGH GHAWANA, Accountant, Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (INMAS), Delhi to be Accounts Officer in Directorate of Management Services, Research & Development Headquarters, New Delhi, with effect from 10-10-1991 (F/N).

Shri Hari Ram, Stenographer Grade-I, Instruments Research and Development Establishment, Dehradun to be Administrative Officer in the same Establishment with effect from 20-2-1991 (F/N).

M. L. ARORA, Jt. Director (Pers)

#### (ARMY BRANCH)

No. 1698, dated 29th November 1991.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY.

#### PERMANENT COMMISSION.

#### Majors to be Substantive Lt Cols (By Selection)

K. Mahadevan (IC-28080Y), ARTY., 01st Aug 1988.

R. K. Prabhakar (IC-28202X), INF., 01st Aug 1988.

M. M. L. Sharma (IC-28235H), INF., 01st Aug 1988.

Pritipal Singh (IC-26890H), INF., 01st Aug 1988.

R. S. Rawat (IC-19385X), INF., 01st Aug 1988.

A. K. Samantray (IC-19386A), ARTY., 01st Aug 1988.

S. K. Jaswal (IC-19387H), ENGRS., 01st Aug 1988.

R. S. Jamwal (IC-19390H), ENGRS., 01st Aug 1988.

B. S. Pawar (IC-19391L), ARTY., 01st Aug 1988.

P. S. Cheema (IC-19392W), EME., 01st Aug 1988.

M. S. Mahara (IC-19394Y), ENGRS., 01st Aug 1988.

D. H. Summanwar (IC-19396K), INF., 01st Aug 1988.

A. S. Chhatwal (IC-19399X), ENGRS., 01st Aug 1988.

Y. S. Panwar (IC-19401K), SIGS., 01st Aug 1988.

Ripudaman Singh (IC-19403P), AOC., 01st Aug 1988.

A. Chaudhuri (IC-19404X), ARTY., 01st Aug 1988.

A. K. Sakhuja (IC-19405A), ARTY., 01st Aug 1988.

M. Pande (IC-19410L), INF., 01st Aug 1988.

Tripat Singh (IC-19411N), INF., 01st Aug 1988.

S. S. Dhillon (IC-19413Y), INF., 01st Aug 1988.

V. V. Singh (IC-19414F), ENGRS., 01st Aug 1988.

Mathew Jacob (IC-19415K), INF., 01st Aug 1988.

K. V. M. Nair (IC-19419A), INF., 01st Aug 1988.

R. S. Ranawat (IC-19420P), INF., 01st Aug 1988.

Y. C. Kashyap (IC-19421X), SIGS., 01st Aug 1988.

J. K. S. Saraon (IC-19423H), INF., 01st Aug 1988.

T. I. Donald (IC-19425N), SIGS., 01st Aug 1988.

Resham Singh (IC-19426W), INF., 01st Aug 1988.

V. S. Yadav (IC-19427Y), ARTY., 01st Aug 1988.

Z. U. Shah (IC-19429K), ARTY., 01st Aug 1988.

- Ramendra Kumar (IC-19430X), INF., 01st Aug 1988.  
 Karma Vir Singh (IC-19431F), SIGS., 01st Aug 1988.  
 V. K. Girdhar (IC-19432K), SIGS., 01st Aug 1988.  
 Y. R. Tyagi (IC-19435X), ARTY., 01st Aug 1988.  
 S. K. Sapru (IC-19436A), INF., 01st Sep 1988.  
 R. Deshpande (IC-19438L), SIGS., 01st Sep 1988.  
 S. Sharma (IC-19440H), INF., 01st Sep 1988.  
 R. S. Bains (IC-19443W), AC., 01st Sep 1988.  
 Krishna Kumar (IC-19444Y), ASC., 01st Sep 1988.  
 R. Chopra (IC-19445F), ARTY., 01st Sep 1988.  
 P. N. Mehra (IC-19447M), INF., 01st Sep 1988.  
 Vijay Singh (IC-19448P), ENGRS., 01st Sep 1988.  
 A. S. Supahia (IC-19452X), ASC., 01st Sep 1988.  
 S. Mukherjee (IC-19453A), INF., 01st Sep 1988.  
 C. S. Bhatia (IC-19455L), ENGRS., 01st Sep 1988.  
 R. P. Gopal (IC-19456N), AOC., 01st Sep 1988.  
 J. I. Peoples (IC-19457W), INF., 01st Sep 1988.  
 D. S. Sandhu (IC-19458Y), AOC., 01st Sep 1988.  
 Inderjit Singh (IC-19459F), ARTY., 01st Sep 1988.  
 J. S. Jind (IC-19463K), AC., 01st Sep 1988.  
 N. K. Banerjee (IC-19464M), INF., 01st Sep 1988.  
 D. Gulwadi (IC-19465P), ARTY., 01st Sep 1988.  
 B. P. S. Jamwal (IC-19466X), SIGS., 01st Sep 1988.  
 S. K. Mehta (IC-19468H), INF., 01st Sep 1988.  
 A. G. Pereira (IC-19469L), EME., 01st Sep 1988.  
 D. Bohwmick (IC-19470W), AOC., 01st Oct 1988.  
 S. R. Puri (IC-19471H), ASC., 01st Oct 1988.  
 Raghbir Singh (IC-19472L), INF., 01st Oct 1988.  
 Y. Bhardwaj (IC-19474W), SIGS., 01st Oct 1988.  
 Shivkumar Singh (IC-19477K), ASC., 01st Oct 1988.  
 G. K. Nischol (IC-19478M), SIGS., 01st Oct 1988.  
 I. S. Bajwa (IC-19479P), ASC., 01st Oct 1988.  
 K. S. Sandhu (IC-19480K), INF., 01st Oct 1988.  
 Gurmail Singh (IC-19488W), ASC., 01st Oct 1988.  
 G. S. Parmar (IC-19489Y), ASC., 01st Oct 1988.  
 A. N. Acharya (IC-19491W), AOC., 01st Oct 1988.  
 S. N. Gupta (IC-19493F), ASC., 01st Oct 1988.  
 S. S. Randhawa (IC-19495M), ENGRS., 01st Oct 1988.  
 S. K. Budhwar (IC-19496P), SIGS., 01st Nov 1988.  
 S. S. Mediratta (IC-19499H), SIGS., 01st Nov 1988.  
 V. K. Sehgal (IC-19503A), SIGS., 01st Nov 1988.  
 A. N. Sharma (IC-19505L), ARTY., 01st Nov 1988.  
 P. K. Mahajan (IC-19506N), ARTY., 01st Nov 1988.  
 R. A. Sharma (IC-19508Y), ASC., 01st Nov 1988.  
 C. B. Vijan (IC-19510W), ARTY., 01st Nov 1988.  
 S. K. Garg (IC-19511Y), ARTY., 01st Nov 1988.  
 V. K. Nijhawan (IC-19512F), AOC., 01st Nov 1988.  
 J. S. Mankotia (IC-19513K), INF., 01st Dec 1988.  
 M. A. K. Chaudhry (IC-19515P), 01st Dec 1988.  
 S. K. M. Chilimbi (IC-19516X), INF., 01st Dec 1988.  
 R. Tandon (IC-19517A), ARTY., 01st Dec 1988.  
 R. Anand (IC-19520A), ARTY., 01st Dec 1988.  
 R. Upadhyay (IC-19521H), ASC., 01st Dec 1988.  
 Subhash Chandra (IC-19523N), SIGS., 01st Dec 1988.  
 A. Jerath (IC-19527K), SIGS., 01st Dec 1988.  
 O. L. Wahi (IC-19528M), ARTY., 01st Dec 1988.  
 S. K. Makan (IC-19531M), SIGS., 01st Dec 1988.  
 Inder Pal Singh (IC-19532P), SIGS., 01st Jan 1989.  
 V. K. Manchanda (IC-19533X), ENGRS., 01st Jan 1989.  
 U. S. Yadava (IC-19536L), ARTY., 01st Jan 1989.  
 Ram Karan Singh (IC-19539Y), EME., 01st Jan 1989.  
 Tejinder Singh (IC-19540N), ENGRS., 01st Jan 1989.  
 D. S. Saini (IC-19543F), INF., 01st Jan 1989.  
 P. S. Hallikeri (IC-19545M), INF., 01st Jan 1989.  
 R. N. Balagopal (IC-19546P), ARTY., 01st Jan 1989.  
 P. N. Ghai (IC-19547X), ARTY., 01st Jan 1989.  
 A. K. Jayal (IC-19548A), INF., 01st Feb 1989.  
 V. V. S. Rao (IC-19549H), ENGRS., 01st Feb 1989.  
 R. K. Mehta (IC-19550X), INF., 01st Feb 1989.  
 U. S. Mehta (IC-19552H), EME., 01st Feb 1989.  
 Raj Pal (IC-19554N), ASC., 01st Feb 1989.  
 Rajender Singh (IC-19556Y), ASC., 01st Feb 1989.  
 S. Mehta (IC-19557F), ARTY., 01st Feb 1989.  
 H. V. Bhalla (IC-19561K), INF., 01st Feb 1989.  
 M. M. Joshi (IC-19563P), ENGRS., 01st Feb 1989.  
 V. Chopra (IC-19568N), ARTY., 01st Feb 1989.  
 M. S. Mand (IC-19569W), ASC., 01st Feb 1989.  
 S. K. Sharma (IC-19570L), ARTY., 01st Feb 1989.  
 S. K. Mukherjee (IC-19572W), INT CORPS., 01st Feb 1989.  
 J. S. Sehgal (IC-19573Y), INF., 01st Mar 1989.  
 V. Chadha (IC-19574F), ASC., 01st Mar 1989.  
 M. S. Sohal (IC-19575K), ARTY., 01st Mar 1989.  
 I. S. Reen (IC-19576M), ARTY., 01st Mar 1989.  
 P. G. Pawar (IC-19577P), INF., 01st Mar 1989.  
 M. V. Kadakel (IC-19581X), ASC., 01st Mar 1989.  
 R. L. Kaul (IC-19586W), ASC., 01st Mar 1989.  
 M. N. Kaushik (IC-19587Y), ASC., 01st Mar 1989.  
 R. Dewan (IC-19591F), SIGS., 01st Mar 1989.  
 N. K. Arjuna (IC-19593M), ASC., 01st Mar 1989.  
 M. P. S. Kapil (IC-19595X), SIGS., 01st Mar 1989.  
 Prabhjot Singh (IC-19596L), AOC., 01st Mar 1989.  
 R. C. Vidyarthi (IC-19601A), SIGS., 01st Mar 1989.  
 Gurucharan Singh (IC-19604N), ARTY., 01st Mar 1989.  
 R. S. Soram (IC-19605W), SIGS., 01st Mar 1989.  
 Mohan Lal (IC-19606Y), ASC., 01st Mar 1989.

- A. N. Pandit (IC-19607F), SIGS., 01st Apr 1989.
- S. K. Pandalai (IC-19608K), ARTY., 01st Apr 1989.
- B. S. Rawat (IC-19612M), ASC., 01st Apr 1989.
- R. S. Bedi (IC-19615A), EME., 01st Apr 1989.
- S. K. Sharma (IC-19617L), ARTY., 01st May 1989.
- S. K. Ghose (IC-19618N), INF., 01st May 1989.
- A. A. Athale (IC-19620L), INF., 01st May 1989.
- M. Mahbubani (IC-19622W), ARTY., 01st May 1989.
- Y. S. Yadav (IC-19625K), ASC., 01st May 1989.
- V. D. Dalvi (IC-19629A), INF., 01st May 1989.
- R. K. Kapil (IC-19636W), MF., 01st May 1989.
- G. N. Reddy (IC-19638F), ASC., 01st May 1989.
- I. M. Jairam (IC-19641F), ENGRS., 01st May 1989.
- Raghunath Singh (IC-19656K), ASC., 01st May 1989.
- Gajraj Singh (IC-19657M), ASC., 01st May 1989.
- S. Banerji (IC-19659X), SIGS., 01st May 1989.
- P. K. Gaba (IC-19666N), EME., 01st May 1989.
- K. S. Pratap Singh (IC-24453K), EME., 01st Jun 1989.
- D. S. Sidhu (IC-24455P), SIGS., 01st Jun 1989.
- V. K. Bhusari (IC-24456X), ENGRS., 01st Jun 1989.
- D. S. Thukral (IC-24457A), ENGRS., 01st Jun 1989.
- Raghujit Singh (IC-24459L), ENGRS., 01st Jun 1989.
- J. S. Brar (IC-24460A), SIGS., 01st Jun 1989.
- N. N. Pasupathy (IC-24461H), EME., 01st Jul 1989.
- Azeem Chide (IC-20967K), SIGS., 01st Aug 1988.
- N. S. C. Bhandary (IC-21173L), SIGS., 01st Aug 1988.
- Ripudaman Singh (IC-22606K), AOC., 01st Aug 1988.
- K. S. Garcha (IC-16880L), AC., 01st Aug 1988.
- D. C. Korla (IC-17106H), AOC., 01st Aug 1988.
- S. S. Pathania (IC-17260F), AOC., 01st Aug 1988.
- Gurkirpal Singh (IC-17298L), ARTY., 01st Aug 1988.
- R. S. Khokhar (IC-17396L), ENGRS., 01st Aug 1988.
- P. B. Gupta (IC-23254K), EME., 01st Aug 1988.
- T. G. B. Nair (IC-26065L), ASC., 01st Aug 1988.
- B. B. Dharni (IC-26220F), AOC., 01st Aug 1988.
- P. K. Sanyal (IC-17570M), SIGS., 01st Aug 1988.
- K. S. Ratra (IC-17775F), ARTY., 01st Aug 1988.
- C. Gangadharan (IC-17780M), ARTY., 01st Aug 1988.
- S. Guha (IC-23607Y), ENGRS., 01st Aug 1988.
- Virendra Kumar (IC-26268P), AOC., 01st Aug 1988.
- R. S. Rana (IC-26344W), AC., 01st Aug 1988.
- M. Marcus (IC-26074M), ENGRS., 01st Aug 1988.
- Laxmi Chand (IC-26097N), EME., 01st Aug 1988.
- T. J. S. Modi (IC-26194L), INF., 01st Aug 1988.
- H. S. Bindra (IC-26218K), AOC., 01st Aug 1988.
- Iqbal Singh (IC-19172K), INF., 01st Aug 1988.
- G. N. Tandon (IC-19232N), AOC., 01st Aug 1988.
- M. S. Ahluwalia (IC-19268M), ARTY., 01st Aug 1988.
- K. H. S. Shekhawat (IC-19888A), INF., 01st Aug 1988.
- S. P. Gangopadhyay (IC-24055H), ENGRS., 01st Aug 1988.
- S. K. Sharma (IC-24093Y), ENGRS., 01st Aug 1988.
- A. K. Sanghi (IC-24135A), ENGRS., 01st Aug 1988.
- S. K. Sinha (IC-24157Y), SIGS., 01st Aug 1988.
- K. Bhoja Raju (IC-24159K), EME., 01st Aug 1988.
- Y. P. S. Dahiya (IC-26475F), INF., 01st Aug 1988.
- C. S. Bahra (IC-26500P), ARTY., 01st Aug 1988.
- J. S. Kang (IC-26503H), INF., 01st Aug 1988.
- U. P. Bhatt (IC-26508F), ASC., 01st Aug 1988.
- C. K. Pasi (IC-26511F), ARTY., 01st Aug 1988.
- N. B. S. Bist (IC-26528P), INF., 01st Aug 1988.
- K. C. Khanoria (IC-26546X), INF., 01st Aug 1988.
- S. K. Neogi (IC-26556F), INF., 01st Aug 1988.
- R. S. Saharan (IC-26569Y), INF., 01st Aug 1988.
- C. A. Gahapathy (IC-26592M), INF., 01st Aug 1988.
- S. L. Narasimhan (IC-26597L), ASC., 01st Aug 1988.
- R. K. Malhotra (IC-26598N), ARTY., 01st Aug 1988.
- R. S. Sandhu (IC-26607K), ARTY., 01st Aug 1988.
- H. S. Bisht (IC-26619Y), INF., 01st Aug 1988.
- J. S. Sarkaria (IC-26652W), ARTY., 01st Aug 1988.
- R. P. Kaushik (IC-26701N), INF., 01st Aug 1988.
- I. S. Sandhu (IC-26720Y), AC., 01st Aug 1988.
- R. S. Negi (IC-26734Y), INF., 01st Aug 1988.
- M. K. Kalra (IC-26736K), INF., 01st Aug 1988.
- V. A. Krishna Shenoi (IC-26744H), AC., 01st Aug 1988.
- S. V. Sabnis (IC-26770K), ASC., 01st Aug 1988.
- Prem Kumar (IC-26782Y), ARTY., 01st Aug 1988.
- P. K. Sharma (IC-26795W), ASC., 01st Aug 1988.
- Raj Singh (IC-26674P), INF., 01st Aug 1988.
- A. K. Sharma (IC-28090H), ARTY., 01st Aug 1988.
- V. B. Mudkavi (IC-26710P), ENGRS., 01st Aug 1988.
- R. S. Donge (IC-26907L), INF., 01st Aug 1988.
- P. Anand (IC-26952X), ARTY., 01st Aug 1988.
- S. K. Goel (IC-28069A), INF., 01st Aug 1988.
- M K Kapoor (IC-28103P), INF., 30th Apr 1990.
- MS Gharjakhia (IC-28107L), ENGRS., 30th Apr 1990.
- Chatter Pal Singh (IC-28114F), ARTY., 30th Apr 1990.
- Rajput Kamal Chand (IC-28117P), ARTY., 30th Apr 1990.
- Harpal Singh (IC-28119A), INF., 30th Apr 1990.
- Sharma Dharam Pal (IC-28123H), ENGRS., 30th Apr 1990.
- Kapoor Jagnath (IC-28131F), AOC., 30th Apr 1990.
- S K Bhola (IC-28132K), ENGRS., 30th Apr 1990.
- D K Gupta (IC-28135X), AOC., 30th Apr 1990.
- Arya Kishan Ram (IC-28137H), AOC., 30th Apr 1990.
- Singh Girijanand (IC-28144Y), AOC., 30th Apr 1990.

- Ravinder Kumar (IC-28145F), AOC., 30th Apr 1990.
- Costa Joseph NG (IC-28146K), ARTY., 30th Apr 1990.
- Sharma Shyam Bihari (IC-28147M), ENGRS., 30th Apr 1990.
- S C Khanna (IC-28150M), AOC., 30th Apr 1990.
- Rai Shri Ram (IC-28153A), SIGS., 30th Apr 1990.
- M S Dhillon (IC-28156N), INF., 30th Apr 1990.
- Vinay Paul (IC-28165P), ARTY., 30th Apr 1990.
- Chopra G Singh (IC-28170A), ARTY., 30th Apr 1990.
- Farias Anseim Josep (IC-28171H), SIGS., 30th Apr 1990.
- D S Dhillon (IC-28174W), INF., 30th Apr 1990.
- Roy Braja Kishore (IC-28177K), ENGRS., 30th Apr 1990.
- Palmanathosh Kumar (IC-28178M), ARTY., 30th Apr 1990.
- Rastogi Anil Kumar (IC-28181M), INF., 30th Apr 1990.
- Yadav Nihal Singh (IC-28182P), INF., 30th Apr 1990.
- Negi Viender Singh (IC-28184A), INF., 30th Apr 1990.
- H P Jauhar (IC-28194K), ASC., 30th Apr 1990.
- Bedi Pritpal Singh (IC-28195M), ENGRS., 30th Apr 1990.
- Sudesh Kumar (IC-28207W), EME., 30th Apr 1990.
- Misra Onkar Nath (IC-28211Y), AC., 30th Apr 1990.
- J S Ahluwalia (IC-28214M), INF., 30th Apr 1990.
- Joginder Singh (IC-28217A), INF., 30th Apr 1990.
- Gyanendra Pal Singh (IC-28221H), ARTY., 30th Apr 1990.
- Tyagi Davendra (IC-28226F), ARTY., 30th Apr 1990.
- Venkamamidi LN (IC-28232P), AOC., 30th Apr 1990.
- Chaddha Soami Nath (IC-28234A), INF., 30th Apr 1990.
- Ahluwalia P Singh (IC-28237N), ARTY., 30th Apr 1990.
- Bist Harpal Singh (IC-28243F), INF., 30th Apr 1990.
- RC Gupta (IC-28244K), INF., 30th Apr 1990.
- OS Tripathi (IC-28247X), EME., 30th Apr 1990.
- Salgar Sridhar (IC-28253L), INF., 30th Apr 1990.
- Pardey Jai Shankar (IC-28255W), INF., 30th Apr 1990.
- Ramasubramanyam (IC-28257F), EME., 30th Apr 1990.
- Sambyal Amrik Singh (IC-28260F), INF., 30th Apr 1990.
- Kniggar JPS (IC-23273P), ARTY., 15th Jun 1990.
- Bhag Singh (IC-23300N), ASC., 15th Jun 1990.
- M N Devrani (IC-23305M), ARTY., 15th Jun 1990.
- Kartar Singh (IC-23325A), ASC., 15th Jun 1990.
- ALF Jog Bahadur (IC-23337P), INF., 15th Jun 1990.
- Het Ram (IC-23339A), ASC., 15th Jun 1990.
- D S Sirohi (IC-23346W), AC., 15th Jun 1990.
- Hawa Singh (IC-23364Y), INF., 15th Jun 1990.
- S S Chibber (IC-23368P), AC., 15th Jun 1990.
- D S Multani (IC-23373A), INF., 15th Jun 1990.
- Chakar Dhar Joshi (IC-23374H), AOC., 15th Jun 1990.
- H S Iacshar (IC-23377W), INF., 15th Jun 1990.
- Barua Sapan Kumar (IC-23385P), JNF., 15th Jun 1990.
- B S Randhawa (IC-23388H), AOC., 15th Jun 1990.
- Pradhan Sukul (IC-23390A), INF., 15th Jun 1990.
- Majors to be substantive Lt Col (By Time Scale)
- Rawal Rajendra Singh (IC-23404P), INF., 15th Jun 1990.
- Mehra Surinder (IC-23405X), ARTY., 15th Jun 1990.
- S S Dadhwal (IC-23406A), INF., 15th Jun 1990.
- R S Dhaiya (IC-23407H), INF., 15th Jun 1990.
- K P Sharma (IC-23413W), ASC., 15th Jun 1990.
- Dogra Kuldeep Singh (IC-23415F), INF., 15th Jun 1990.
- S B Bhasin (IC-23416K), INF., 15th Jun 1990.
- Ram Singh (IC-23418P), ASC., 15th Jun 1990.
- Tyagi Dal Chand (IC-23421P), INF., 15th Jun 1990.
- Rana Rattan Chand (IC-23425L), INF., 15th Jun 1990.
- RS Sagar (IC-23433K), INF., 15th Jun 1990.
- Parbhat Singh (IC-23435P), INF., 15th Jun 1990.
- Ajit Singh (IC-23441H), INF., 15th Jun 1990.
- O Muhammed (IC-23442L), ARTY., 15th Jun 1990.
- Ranjit Singh (IC-23444W), SIGS., 15th Jun 1990.
- A K Batcha (IC-23443M), ARTY., 15th Jun 1990.
- Rava Jiban Kumar (IC-23450K), INF., 15th Jun 1990.
- Surinder Singh Oberoi (IC-23455H), ARTY., 15th Jun 1990.
- Gopal Subba (IC-23457N), ASC., 15th Jun 1990.
- Bhupesh Dadhwal (IC-23459Y), AOC., 15th Jun 1990.
- Thind Baldev Singh (IC-23464K), INF., 15th Jun 1990.
- JK Sharma (IC-23465M), ARTY., 15th Jun 1990.
- Jaswal Hazura Singh (IC-23467X), INF., 15th Jun 1990.
- Banerji Supriya (IC-23468A), INF., 15th Jun 1990.
- Pathania Sher Singh (IC-23471A), INF., 15th Jun 1990.
- Rajvir Singh (IC-23472H), INF., 15th Jun 1990.
- Prem Nath (IC-23480F), INF., 15th Jun 1990.
- SR Choudhary (IC-23481K), INF., 15th Jun 1990.

LP Aggarwal (IC-23483P), CORPS., 15th Jun 1990.  
 Arora Balwant Rai (IC-23488N), AOC., 15th Jun 1990.  
 OM Prakash (IC-23489W), INF., 15th Jun 1990.  
 Joshi Govin Chandra (IC-23492W), ENGRS., 15th Jun 1990.  
 N D Prashar (IC-23496M), ARTY., 15th Jun 1990.  
 Sarin Susbil Kumar (IC-23497P), INF., 15th Jun 1990.  
 Sharma O M Prakash (IC-23498X), AOC., 15th Jun 1990.  
 Mandal Asish Kumar (IC-23499A), INF., 15th Jun 1990.  
 M S T Manan (IC-23503X), ARTY., 15th Jun 1990.  
 Sham Lal (IC-23506L), INF., 15th Jun 1990.  
 Shiv Kumar (IC-23509Y), ASC., 15th Jun 1990.  
 M S Solanki (IC-23512Y), ARTY., 15th Jun 1990.  
 Limbu Dipak (IC-23514K), INF., 15th Jun 1990.  
 Ram Dayal Singh (IC-23517X), ASC., 15th Jun 1990.  
 L S Rawat Thakur (IC-23520X), INF., 15th Jun 1990.  
 P C Parwana (IC-23523L), INF., 15th Jun 1990.  
 Chattarji Dilip (IC-23526Y), INF., 15th Jun 1990.  
 Tiwari R L (IC-23529M), ASC., 15th Jun 1990.  
 Lahiry Asish Kumar (IC-23530F), AOC., 15th Jun 1990.  
 Amar Singh (IC-23577M), AEC., 15th Jun 1990.  
 R N Dwivedi (IC-23578P), AEC., 15th Jun 1990.  
 S K Chakraborty (IC-23596X), AEC., 15th Jun 1990.  
 Misra Ram Nath (IC-23624Y), AEC., 15th Jun 1990.  
 Mehrotra Vishnu Kant (IC-23633A), AEC., 15th Jun 1990.  
 A Sadasivan (IC-25370L), SIGS., 16th Jun 1990.  
 A P Satish (IC-25385N), EME., 16th Jun 1990.  
 J Jacob (IC-25389K), ENGRS., 16th Jun 1990.  
 S A Tamhaney (IC-25401A), ENGRS., 16th Jun 1990.  
 S K Oberoi (IC-25402H), EME., 16th Jun 1990.  
 Negi Surjit Singh (IC-28492A), ARTY., 21st Jun 1990.

D. C. KATOCH,  
Lt Col.

No. 1699, dated 20th November 1991.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Anil Kumar (IC-35718) AOC, P R Patil (IC-35737) ASC, S B Raut (IC-35753) AOC, 16 Dec 1989.

Arun Mukerjee (IC-35187) Inf, K K Sircar (IC-35268) Inf and D C Kakali (IC-35279) Inf 10 Jun 1989.

M P S Kakra (IC-35238) Inf, 10 Jun 1989 (Pay and allowances w.e.f. 3 Sep 1990).

Ashutosh Dhar (IC-35622) ASC, 16 Dec 1989.

Girish Kumar (IC-39812) Engrs, 13 Jun 1990.

Attar Singh (IC-25737) ASC, 21 May 1990.

(Pay and allowances w.e.f. 03 Sep 1990).

Jagdish Kumar (IC-35940) ASC, 09 Jun 1990.

C. Dhawan (IC-17284) EME, 25th Jun 1981.

To be Subs Brig.

Col B Prakash (IC-11055), SM, VSM, Int Corps, 21-01-1988 with seniority from 06-11-1985 without effect on pay and pension.

Col S P Malhotra (IC-11217), Int Corps, 26-08-1988 with seniority from 01-05-1986 without effect on pay and pension.

Col Prakash Chandra (IC-11651), AOC, 01-08-1988 with seniority from 20-12-1986 without effect on pay and pension.

Col A K Suri (IC-11963), Arty, 11-01-1989 with seniority from 22-12-1986 without effect on pay and pension.

Col K A Patil (IC-12227), MF, 24-06-1988 with seniority from 01-04-1987 without effect on pay and pension.

Col G K Sahney (IC-12336), Int Corps, 01-05-1989 with seniority from 03-11-1987 without effect on pay and pension.

Col R F Lobo (IC-12420), Sigs, 20-06-1988 with seniority from 01-02-1988 without effect on pay and pension.

Col S S Sharma (IC-12440), AOC, 25-10-1988 with seniority from 01-02-1988 without effect on pay and pension.

Col A M Jain (IC-13846), EME, 16-09-1988 with seniority from 01-07-1988 without effect on pay and pension.

Col M L Nasa (IC-13853), Engrs, 02-07-1988.

Col K K Kapahi (IC-13860), EME, 02-07-1988.

Col Raghunandan (IC-14296), VSM, Sigs, 02-07-1988.

Col U S Arora (IC-14299), EME, 02-07-1988.

Col M L Bhandari (IC-14318), EME, 02-07-1988.

Col G Badlani (IC-14325), Engrs, 03-12-1988 with seniority from 02-07-1988 without effect on pay and pension.

Col R S Bains (IC-14327), EME, 09-01-1989 with seniority from 02-07-1988 without effect on pay and pension.

Col R C Sridharan (IC-14312), EME, 08-06-1989 with seniority from 02-07-1988 without effect on pay and pension.

Col T P Chandran (IC-13856), EME, 20-05-1989 with seniority from 02-07-1988 without effect on pay and pension.

Col V V Prabhudesai (IC-14301), VSM, EME, 07-04-1989 with seniority from 02-07-1988 without effect on pay and pension.

Capt to be Major

J C Pandey (IC-36929) JAG, 17 Nov 1988.

SS Shekhawat (IC-38429), PK Yadav (IC-38430) Inf, Baljit Singh (IC-38432) ASC, D Bahuguna (IC-38434) Inf, DC Kotibhaskar (IC-38435) Arty, Jotinderpal (IC-38436) Mech Inf, R V Batra (IC-38437) Arty, Y V Prasad (IC-38438), Samir Bisaria (IC-38439), Sagar Singh (IC-38440), Diwakar Dogra (IC-38441) Inf, SK Kaul (IC-38442) Arty, Rajiv Sirohi (IC-38443) AC, MGR Shiroadkar (IC-38444), J Krishan (IC-38445), GY Limba (IC-38446), SC Jaglan (IC-38447) Inf, Jai Kumar Nair (IC-38448) Arty, JA Rocque (IC-38451) AEC, OP Thakur (IC-38453) Inf, G Mukherjee (IC-38455), HCS Gulati (IC-38456) Arty, R Sadasivan (IC-38457) Inf, Sidhartha Guha (IC-38458), FB Singh (IC-38459) Inf, NS Rana (IC-38460) EME, RP Srivastava (IC-38461) Inf, Vimal Kumar (IC-38462) Arty, 22 Dec 1990.

BD Singh (IC-38509) Inf, SNP Shahi (IC-38511) Arty, AA Oka (IC-38513) AC, VT Venkatesh (IC-38514) Arty, V Antony (IC-38515) Arty, DN Gupta (IC-38517), Mani Ram (IC-38518), MS Rao (IC-38519) Inf, Harjaspal Singh (IC-38520) Arty, PV Narayanan (IC-38525) Arty, VR Rampal (IC-38527) Arty, Sanjeev Sahai (IC-38529) Mech Inf, VT Sainani (IC-38530) Arty, PK Mohanta (IC-38532) Arty, Rajesh Sood (IC-38533), P V Varghese (IC-38534) Inf, Jaibans Singh (IC-38536) AC, BK Mandal (IC-38541) Inf, BS Ebrahim (IC-38542), AK Thapa (IC-38543), K Ramachandran (IC-38545), AK Lall (IC-38546), KS Mohan (IC-38547) Inf, SK Kapur (IC-38548) Arty, Himat Singh Gupta (IC-38524) Arty, 22 Dec 1990.

YS Mahiwal (IC-38363), RK Saxena (IC-38364) Inf, AU Joshi (IC-38365) Sigs, DS Yadav (IC-38366), Lalan Chaubey (IC-38368) Arty, Suresh Rana (IC-38369) AOC, D Malhotra (IC-38370), Sukhvinder Singh (IC-38371), LM Chamola (IC-38373) Inf, AK Garg (IC-38374), DK Routray (IC-38375) Arty, DD Mohindra (IC-38376), Pankaj Sinha (IC-38377) Inf, Rajendra Menon (IC-38379), NA Washington (IC-38380) Arty, RS Rathore (IC-38381) AOC, PK Bishnoi (IC-38382) Arty, BL Chaudhary (IC-38383) ASC, Jaswinder Singh (IC-38384) Arty, Mam Raj Singh (IC-38386) Inf, P Sashidharan (IC-38387) Inf, Rajesh Tyagi (IC-38388) Engrs, VP Singh (IC-38389) AOC, Ramanjit Singh (IC-38390), Ajay Kumar (IC-38391) Inf, B Bhushan (IC-38393) AOC, JL Malik (IC-38394) Inf, 22 Dec 1990.

RAGHUBIR SINGH,  
CSO  
DAMS 8C

No. 1700, dated 11th December 1991.—The following appointment is made :—

#### RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

Shri Aditya Narain Singh, Assistant, DG NCC has been promoted as Officiating Assistant Civilian Staff Officer (Gp-B—Gazetted) in the pay scale of Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500/- in the AFHQ Civil Service with effect from 13-11-1991 (F/N) and taken on the strength of R&D from the same date.

2. The above appointment is purely provisional and subject to revision of seniority based on the judgement of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition No. 439 of 1990 in Shri RK Khosla and others vs. Union of India and also subject to directions of Supreme Court, CAT on related cases.

S LOGANATHAN,  
Dy. Chief Administrative Officer

#### (NAVY BRANCH)

No. 1701, dated 20th November, 1991.—The President is pleased to make the following promotion in the Executive

Branch of Indian Navy under the Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory :—

#### NAVY BRANCH

(Permanent Commission)

Sub-Lieutenant to be Lieutenant

Sub-Lt—35th INTEG COURSE	Date of Promotion
1	2
RK Nair (03408-W)	01 Jan 91
P Chauhan (03378-A)	Do.
Ajit Kumar (03399-Z)	Do.
AK Rastogi (03423-B)	Do.
R Parmar (03415-K)	Do.
Y Sawhney (03434-B)	Do.
VK Pisharody (03411-A)	Do.
D Kumar (03392-H)	16 Jan 91
HS Sapre (03448-K)	01 Mar 91
R Mishra (03406-R)	Do.
OP Verma (03412-B)	Do.
S Bhalla (03371-K)	Do.
SK Dhingra (03380-F)	16 Mar 91
S Rishiraj (03417-R)	01 Apr 91
UK Bhardwaj (03372-N)	16 Apr 91
VR Peshwae (03410-Z)	01 May 91
GV Bhushan (03385-T)	Do.
C D'Souza (03383-N)	16 May 91
AK Mathar (03403-H)	01 Jun 91
MK Kukreti (03398-Y)	01 Jun 91
RS Parmar (03409-Y)	Do.
V Behl (03369-F)	16 Jun 91
VK Sawhney (03430-W)	Do.
DR Kulkarni (03396-T)	Do.
AK Singh (03429-T)	01 Jul 91
DK Swain (03428-R)	16 Jul 91
GS Kalkat (03400-A)	Do.
RP Singh (03436-H)	Do.
VS Chauhan (03374-F)	01 Aug 91
SK Dhawan (03382-K)	Do.
Vivek Kumar (03397-W)	16 Aug 91
A Ambastha (03368-B)	16 Jun 91
MS Raghavan (03418-T)	01 Apr 91
MS Rahman (03421-Z)	01 Aug 91
V Singh (03424-I)	16 Jul 91
NK Srivastava (03426-K)	16 Aug 91
Girish Dhawan (03447-II)	01 Jul 91
R Banerjee (03370-H)	Do.
SK Gupta (03387-Y)	16 Jun 91
S Kumar (03393-K)	Do.
NK Kulkarni (03395-R)	01 Sep 91
AJ Noronha (03407-T)	16 Mar 91

Asst. Director of Pers/JOA&R  
SC MINOCHA  
CSO

## AIR BRANCH

No. 1702, dated 13th December 1991.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

## INDIAN AIR FORCE

## AE Branch

Wg Cdr to be substantive Group Captain

R K BANDHU (8363) AE(L)—2-4-1990  
 O P SUD (7989) AE(M)—2-4-1990  
 J S KALRA, VSM (7999) AE(M)—2-4-1990  
 M S SHERFUDEEN, VSM (8501) AE(M)—2-4-1990  
 PRATAP SINGH, VSM (8897) AE(L)—2-4-1990  
 R C CHAUDHRY (7988) AE(M)—2-4-1990  
 AJIT SAHAY (8297) AE(M)—2-4-1990  
 HIRDESH MATHUR (9689) AE(L)—21-5-1990  
 V KHANNA (9577) AE(L)—21-5-1990  
 R P SHARMA, VSM (10063) AE(L)—21-5-1990  
 S P SAXENA (9951) AE(L)—21-5-1990  
 V K TIWARI (10319) AE(L)—21-5-1990  
 P K DESAI, VSM (10078) AE(M)—1-6-1990  
 U K NAIR, VSM (10085) AE(M)—1-6-1990  
 R P GOYAL (10283) AE(L)—1-6-1990  
 S P SINGH, VSM (10699) AE(L)—1-6-1990  
 N K MAHARISHI (7628) AE(L)—1-9-1990  
 T A KHISTI (7322) AE(M)—1-10-1990  
 S K GROVER (8017) AE(M)—02-4-1990

[His name will appear between Gp Capts R K BANDHU (8363) AE(L) and O P SUD (7989) AE(M) in the gradation list]

PRADUMAN SINGH (9384) AE(L)—09-4-1990

[His name will appear between Gp Capts AJIT SAHAY (8297) AE(M) and HIRDESH MATHUR (9689) AE(L) in the gradation list].

PS MATHUR (7618) AE(L)—01-10-1990

[His name will appear between Gp Capts N K MAHARISHI (7628) AE(L) and T A KHISTI (7322) AE(M) in the gradation list]

R MURLIDHARAN (7929) AE(L)—21-3-1991

R N DASS, VSM (7896) AE(L)—21-3-1991

S K KOUL (7872) AE(M)—21-3-1991

A U MUDBIDRI (8811) AE(M)—21-3-1991.

R. PANDIT,  
 Dy. Director of Personnel (Officers) 2(A)

No. 1703, dated 13th December 1991.—The President is pleased to sanction the relinquishment of Provisional Short Service Commission and grant Permanent Commission (on probation for one year) to the undermentioned Pilot Officers under the provisions of AFI 15/76.

## INDIAN AIR FORCE

## MET BRANCH

Anil Kumar DEVRANI (19988), L Edward JOSEPH (19989) and Satish MISHRA (19987) w.e.f. 16 Dec 89.

V BALAGOPALAN, Sqn Ldr  
 ADPO 3(D)

No. 1704, dated 3rd December 1991.—The President is pleased to promote the undermentioned officer to the substantive rank of Fg Offr wef the date as stated against his name :—

## INDIAN AIR FORCE

## ADM BRANCH

Plt Offr PS Rath (18619) wef 06 Dec 88.

Plt Offr JPS Jassal (19625) wef 06 Dec 88.

No. 1705, dated 2nd December 1991.—The President is pleased to promote the undermentioned officer to the substantive rank of Fg Offr wef the date stated against his name :—

## INDIAN AIR FORCE

## ADM BRANCH

Plt Offr A V Muthal (19920), B B Sharda (19921), Rajish Verma (19922), Kumud Sethi (19923), N A Alexander (19924), N Chandra (19925), N Shivakumar (19926), V S Hardas (19927), J B Rane (19928), R Ranjan (19929), Sonny Mishra (19930), Virendra Singh (19931), A Shukla (19932), S Panda (19933) wef 14 Jun 91.

## LGS BRANCH

Plt Offr B S Panag (19934), N Kishor (19935), A P Ranganathan (19936), Sanjay Kumar Mishra (19937), P K Nair (19939), R K Srivastava (19940), B Chongtham (19941), S Das (19942), P J Jadhav (19943), B Sundaresan (19944), S Chopra (19945), A Srivastava (19946), A Rathore (19947), A K Renick (19948), K Srinivasan (19938) wef 14 Jun 91.

No. 1706, dated 14th October 1991.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers, who were granted Permanent Commission (On Probation) :—

## INDIAN AIR FORCE

## ADM BRANCH

Plt Offr Ashim Kapoor (20580), Aman Kapur (20583), Jasvinder Singh Guru (20589), Rajeev S Sisodia (20593), VSS Madan (20595), Samson M Petars (20601), Ashutosh Kapur (20606), wef 15 Dec 90.

## LGS BRANCH

Plt Offr Chandra Shekhar Bhatt (20621), Bhagwat (20625), wef 15 Dec 90.

## ACCTS BRANCH

Plt Offr S K Sinha (20627), C I Mathew (20630), Raj Kumar (20631), Charles Airben Thomas (20633), Johnson Thomas (20634), Pradeep Mehta (20637), Anil Arora (20638), Prafulla Kala (20640), A Sarmuga Nathan (20642), Rao Joseph Sanjeev (20643) wef 15 Dec 90.

B U PILLAY, Sqn Ldr  
 ADPO-3(D)

## (AIR BRANCH)

No. 1707, dated the 4th December 1991.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

## INDIAN AIR FORCE

## LOGISTIC BRANCH

GROUP CAPTAINS TO BE SUBSTANTIVE AIR CMDES

K V IYA (5813) LGS—02-7-90.

R K BHUTANI (5815) I.GS—13-8-90.

R. C. P. O.

No. 1708, dated 4th December 1991.—The following amendment to Gazette Notification No. A/23456/DGN/CAO/A-7(A) dated 9-9-91 regarding appointment of Shri O. N. Mishra, to the grade of Senior Accounts Officer (Gp 'A'-Gazetted) in the pay scale of Rs. 3000-4500/- on deputation basis is made:—

For: Appointed as Senior Accounts Officer for six months with effect from 27-8-91 (F/N).

Read: Appointed as Senior Accounts Officer for three years with effect from 27-8-91 (F/N) or till further orders, whichever is earlier.

S. LOGANATHAN  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

#### ARMY HEADQUARTERS

##### AG's BRANCH

No. 1709, dated the 3rd December 1991.—On having attained the age of superannuation, Shri Ram Murti Sharma, CSO, of the Armed Forces Headquarters Civil Service, retired from Government service with effect from 30 Nov 91 (A/N) and transferred to Pension Establishment with effect from 01 Dec 91 (F/N).

S. LOGANATHAN  
Dy. Chief Administrative Officer.

##### (ARMY BRANCH)

No. 1710, dated 26th November 1991.—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service with effect from the dates noted against them on attaining the normal age of retirement:—

##### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

Col Suraj Mal Panu (IC-15322L), ASC 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Thekkapud Variath Achuthan (IC-18261W), ASC, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Pearayil Narayanankutty (IC-21716M) ASC, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Shakti Kumar Bhalla (IC-18895M) ASC, 28 Feb 91 (A/N).

Major Bana Ram Sharma (IC-17607H), ASC, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Virendra Kumar Mahajan (IC-16747H), ASC, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Narinder Singh Sandhu (IC-17791Y), ASC, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Ashwani Kumar Sawani (IC-20358A), Int Corps, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Chidambaram Kudil Seshadri (IC-22174A), Sigs, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Vijay Kumar Chadha (IC-21696K), Sigs, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Om Prakash Bhatia (IC-18631L), Sigs 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Raghubir Kumar (IC-20686N), Sigs, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Bhupal Chandra Lahiri (IC-18629N), Engrs 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Stantly Susil Nathaniel Reuben (IC-13049P), Engrs, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Tarif Singh Koshal (IC-14233M), Engrs, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Sarvesh Kumar Pradhan (IC-16462W), Engrs, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Channipa Thimmaiah Somaiah (IC-18302P), Arty, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Devinder Krishan Kapur (IC-10437F), Arty 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col. Vishnu Laxman Wadodkar (IC-22128L), Arty 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Nirmaljit Singh (IC-12095X), Arty 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Harbhajan Singh (IC-13011L), Arty, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Harbaljit Singh Dhinsa (IC-13816H), Arty, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Virendra Prakash Saxena (IC-14246) Arty, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Silba Swami Banerjee (IC-18931M), Arty, 28 Feb 91 (A/N).

Capt P N Sharma (SL-2333L) AEC, 28 Feb 91 (A/N).

Capt B N Choudhury (SL-2425X) QM, 28 Feb 91 (A/N).

Capt PS Pillai (RC-008M), Engrs—28 Feb 91 (AN).

Capt Surinder Singh (RC-122K), Inf 28 Feb 91 (A/N).

Capt D B Singh (RC-140M), AOC 28 Feb 91 (A/N).

Col Bhaumik Kundal (IC-18503N) Kumaon 28 Feb 91 (A/N).

Col Sukhacharan Singh Sachdev (IC-18730N), Punjab 28 Feb 91 (A/N).

Col Anish Kumar Chakroborty (IC-18858Y), Jak LI 28 Feb 91 (A/N).

Col Kalp Nath Rai (IC-20515F), Jat 28 Feb 91 (A/N).

Col Pritam Singh Sohal (IC-22069K) Jak Rif 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Kartar Singh Dalal (IC-14507M), Grenadiers 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Bhikham Singh, Vrc (IC-14602Y) Punjab 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Gurmit Singh Teja (IC-18030A) MLI 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Hans Raj Malik (IC-18154P) Mahar 28 Feb 91 (A/N).

Col Chhatra Pal Singh (IC-18722P) Rajput 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Braj Raj Singh Bhadauria (IC-20068H), Kumaon, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Mohinder Singh (IC-13796A), Raj Rif 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Bhagat Singh Manral (IC-13972M), Assam 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Jagroop Singh (IC-16024N) 5 GR, 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Ramesh Kumar Kanwar (IC-20188F), Grenadiers 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col (TS) Girish Chandra Tiwari (IC-21414A), 11 GR 28 Feb 91 (A/N).

Lt Col Kartar Singh Dalal (IC-15730H), Grenadiers 28 Feb 91 (A/N).

Col Prem Chandra Sanwal (IC-18094L) Garh Rif 31 Mar 91 (A/N).

Lt Col Daljit Singh Sidhu (IC-18713N) Punjab 31 Mar 91 (A/N).

Lt Col Vishwinder Kumar Sood (IC-20058Y), 4 GR, 31 Mar 91 (A/N).

Lt Col (TS) Kirori Lal Arya (IC-14669X), Jat—31 Mar 91 (AN).



- Lt Col (TS) Kultar Chand (IC-14647Y) Jak Rif 31 Mar 91 (A/N).
- Lt Col (TS) Naurota Ram Kaushish (IC-14712N), Garh Rif 31 Mar 91 (A/N).
- Lt Col (TS) Purushottam Gore (IC-14705X), MLI 31 Mar 91 (A/N).
- Lt Col (TS) R B Phadkar (IC-13028Y), 4 GR 31 Mar 91 (A/N).
- Lt Col (TS) K A Madaiya (IC-13337F), 3 GR 31 Mar 91 (A/N).
- Lt Col (TS) Ravjindar Kumar Dogra (IC-18570Y), 5 GR, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col (TS) Tarlochan Singh Malhotra (IC-20810K), Mahar 31 Mar 91 (A/N).
- Major Tara Singh Gill (IC-17003K) Sikh LI, 31 Mar 91 (AN).
- Major Gurmail Singh (SL-1941A) Sigs, 31 Mar 91 (AN).
- Major KM Kamalkaran (SL-1673) Engrs, 31 Mar 91 (AN).
- Major Prem Nath (SL-1999X) RO, 31 Mar 91 (AN).
- Major Harbhajan Singh (SL-1911H) QM, 31 Mar 91 (AN).
- Major Raj Kumar Pattu (SL-1848Y) QM, 31 Mar 91 (AN).
- Capt Atam Singh (SL-2312P) Sigs, 31 Mar 91 (AN).
- Capt CP Cheranny (SL-2370Y) RO, 31 Mar 91 (AN).
- Capt CS Mander (SL-2366W) RO, 31 Mar 91 (AN).
- Capt Dharam Singh Dhillon (SL-2335W) AEC, 31 Mar 91 (AN).
- Capt KT Varkey (RC-145) AOC, 31 Mar 91 (AN).
- Capt Surat Singh (RC-97) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Capt Raj Narain (RC-92) AOC, 31 Mar 91 (AN).
- Capt SL Shandil (RC-58) EME, 31 Mar 91 (AN).
- Capt Bahal Chand (RC-19) Para, 31 Mar 91 (AN).
- Col Suresh Shivram Desai (IC-13071A) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Col Sundaresa Iyer Swaminathan (IC-18339W) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Col Sadhu Singh Chahal (IC-15475F) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Omesh Kumar Opal (IC-20443H) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Sharad Kumar Pande (IC-22118F) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Col Coimbatore Venkataraman Rajgopal (IC-20339P) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Brajinder Lal Kaushal (IC-18733F) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Hari Chand Sahroha (IC-12721W) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Kulwant Singh (IC-21956K) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col (TS) Rattan Lal (IC-15461F) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col (TS) Bhattacharjee Asit Ranjan (IC-18585E) Arty, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Kanwal Singh (IC-18239L) EME, 31 Mar 91 (AN).
- Col Rajinder Singh Marya (IC-18584Y) EME, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Kulbir Krishan Bhatia (IC-16526W) EME, 31 Mar 91 (AN).
- Col Jeewan Prakash Vijayavargiya (IC-15137K) Engrs, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Verinder Kumar Aggarwal (IC-20960A) Engrs, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col (TS) Ravi Saran Singh Saroan (IC-22559X) Engrs, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Govind Bharati (IC-14988K) AEC, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Raj Bahadur Sharma (IC-20046K) Sigs, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Hariharan Ramani (IC-18335A) Int Corps, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col (TS) Vijay Kumar Sharma (IC-15387L) Sigs, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col (TS) Ramesh Prakash Sharma (IC-21535F) AEC, 31 Mar 91 (AN).
- Col Santool Singh Rana (IC-17448X) AOC, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Virendar Singh (IC-15242A) ASC, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Harjish Chander Huria (IC-20467M) ASC, 31 Mar 91 (AN).
- Major Man Chand Rana (IC-17448W) ASC, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Karan Singh Badesra (IC-21451N) ASC, 31 Mar 91 (AN).
- Major Arekar Sharad Yeshavant (IC-17489A) AOC, 31 Mar 91 (AN).
- Major Surender Singh Kataria (IC-17073H) AOC, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col (TS) Prithi Pal Singh Vohra (IC-21164K) AOC, 31 Mar 91 (AN).
- Lt Col Joginder Singh (IC-17612N) AOC, 30 Apr 91 (AN).
- Lt Col Thanveil Joseph George (IC-13060N) AOC, 30 Apr 91 (AN).
- Lt Col Unnikrishna K Pillai (IC-15291H) ASC, 30 Apr 91 (AN).
- Major Harbans Lal Kapoor (IC-20139Y) AOC, 30 Apr 91 (AN).
- Major Amar Singh Vork (IC-16839P) ASC, 30 Apr 91 (AN).
- Lt Col (TS) Piara Singh (IC-17012L) ASC, 30 Apr 91 (AN).
- Lt Col (TS) Padam Singh Rathore (IC-17112W) AOC, 30 Apr 91 (AN).
- Col Vinod Prakash Kapoor (IC-13034M) Sigs, 30 Apr 91 (AN).
- Lt Col Jage Ram Rana (IC-18372N) AEC, 30 Apr 91 (AN).
- Lt Col Ramesh Kumar Khanna (IC-18899H) AEC, 30 Apr 91 (AN).
- Lt Col (TS) Mysore Gopalakrishnan Rao Ramamurthy (IC-21544H) Sigs, 30 Apr 91 (AN).
- Col Kuttetur Vasudeva Prabhakar Rao (IC-16767W) EME, 30 Apr 91 (AN).
- Lt Col (TS) Shivraj (IC-20627F) Mech Inf, 30 Apr 91 (AN).

Col Vinay Kumar Naroola (IC-18975K) Engra, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col Ramesh Chander Sharma (IC-22093A) Engrs, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Thomas Mathew (IC-22711A) Engrs, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Suresh Balvanta Jadhav (IC-13290F) Engrs, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Partap Singh (IC-20753N) Engrs, 30 Apr 91 (AN).

Col Bahjan Singh (IC-15596H) Arty, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col Mahender Singh Yadav (IC-21743W) Arty, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col Jagtar Singh Dhillon (IC-20365W) Arty, 30 Apr 91 (AN).

Col Amrit Paul Singh Grewal (IC-12936P) Arty, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Jagdish Chander Sharma (IC-22246Y) Arty, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Jagjit Singh (IC-22933P) Arty, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Nachhattar Singh Burn (IC-21528L) Arty, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Gurdev Singh Grewal (IC-18671M) Arty, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Yogeshwar Prasad (SL-17772K) RO, 30 Apr 91 (AN).

Maj Shri Ram Yadava (SL-2084X) QM, 30 Apr 91 (AN).

Major Atma Singh (SL-2125W) RO, 30 Apr 91 (AN).

Major Hukam Singh (SL-2171L) EME, 30 Apr 91 (AN).

Major Kehar Singh (SL-2187W) QM, 30 Apr 91 (AN).

Major PK Kutty (SL-2240W) Sigs, 30 Apr 91 (AN).

Major Roshan Lal Sharma (SL-1985X) QM, 30 Apr 91 (AN).

Major Joga Singh Sindhu (SL-2319Y) EME, 30 Apr 91 (AN).

Capt Navamoney Raja Singh (SL-2604X) Engrs, 30 Apr 91 (AN).

Capt Karan Singh Gulla (SL-2424P) QM, 30 Apr 91 (AN).

Capt MG Kutty (RC-28) AOC, 30 Apr 91 (AN).

Capt NPM Pillai (RC-29) Sigs, 30 Apr 91 (AN).

Capt MS Devlas (RC-50) EME, 30 Apr 91 (AN).

Capt DS Kaira (RC-56) Sigs, 30 Apr 91 (AN).

Capt A Joseph (RC-69) EME, 30 Apr 91 (AN).

Capt KPS Nair (RC-95) Engrs, 30 Apr 91 (AN).

Capt SS Yadava (RC-96) Sigs, 30 Apr 91 (AN).

Capt CS Chhina (RC-131) EME, 30 Apr 91 (AN).

Col Mela Singh (IC-13880A) Jat, 30 Apr 91 (AN).

Col Amrik Singh Vrc, (IC-18055M) Sikh, 30 Apr 91 (AN).

Col Devendra Singh Bhasin (IC-12694X) Madras, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col Maheshinder Singh Punia (IC-20366Y) Sikh, 30 Apr 91 (AN).

Col Tejinder Singh Kanwar (IC-12714A) Assam, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col Balbir Singh Poonia, Vrc (IC-13361X) Raj Rif, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col Sharad Chandra Shukla (IC-20798N) MII, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Tej Pratap Singh Dhanoya (IC-18155X) Mahar, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Kuldip Singh Sidhu (IC-13068A) Sikh LI, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Karam Chand Katoch (IC-17247X) Bihar, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Mangalor Damodar Bhat (IC-13749H) Madras, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Dalvinder Singh (IC-12063P) Sikh., 30 Apr 91 (AN).

Capt. DS Kaira (RC-56) Sigs, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Bal Krishan Sekhri (IC-12104N) Kumaon, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Shambhu Nath Singh (IC-14257W) Rajput, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Narendra Pratap Singh (IC-21843F) Grenadiers, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Raghubir Singh Pathania (IC-13827P) Madras, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Satendra Mohan Shahi (IC-14648F) Dogra, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Jagman Rai (IC-14598F) Garg Rif, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Lal Chand Tawatia (IC-14656A) Grenadiers, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col (TS) Bachan Singh (IC-15776L) Jat, 30 Apr 91 (AN).

Col Bhawan Singh Mehra (IC-18039P) 1 GR, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col Krishna Nand Ghildiyal (IC-13206W) 11 GR, 30 Apr 91 (AN).

Lt Col Mohan Lal Chandna (IC-21381A) 8 GR, 30 Apr 91 (AN).

PK RAMPAL,  
Col.

Col MS Retirement & Release

No. 1711, dated 4th December 1991.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire voluntarily from the service with effect from dates shown against his/their names.

#### INDIAN AIR FORCE

#### F(P) BRANCH

Wg Cdr D PAUL (9837)—31-7-91 (AD).

Gp Capt AS MUKHIJA (6765)—14-5-90 (AD).

Wg Cdr PN PARALKAR (11392)—31-8-90 (AD)

Wg Cdr RAJ KUMAR (12190)—30-5-90 (AD).

Wg Cdr VP MATHUR (11599)—15-2-90 (AD).

## EDN BRANCH

Wg Cdr SC SAXENA (8839) EDN—31-8-90 (AD).	Wg Cdr R DUNNE (10557) F(P)—31-10-89 (AD).
Wg Cdr RS MALHOTRA (8830) EDN—20-2-90 (AD).	Wg Cdr MR HANDA (11276) F(P)—31-10-90 (AD).
Wg Cdr M CHANDRA (6658) EDN—30-11-90 (AD).	Wg Cdr JJ SINGH (9504) F(N)—31-10-90 (AD).
Wg Cdr AK DHAWAN (10718) AE (L)—30-11-90 (AD).	Wg Cdr SK BUTI (7814) F (N)—31-5-90 (AD).
Gp Capt D PANDE (5722) ADM—31-8-90 (AD).	W/C GS Sodhi (11911) AE (L)—30-9-90 (AD).
W/C M Sivakumar (9347) EDN—31-7-91 (AD).	G/C DS Minhas (6556) AE (M)—30-9-90 (AD).
W/C Surjit Singh (8049) ADM—31-7-91 (AD).	W/C RH Borikar (12580) AE (M)—31-1-91 (AD).
Wg Cdr SS KRISHNAMURTHY (11660) F (P)—31-5-90 (AD).	Air Cmde SS Mumick (6246) AE(M)—15-2-91 (AD).
	V BALAGOPALAN, Sqn Ldr ADPO 3 (F) For ADP

